



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 31] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 4—अगस्त 10, 2012 (श्रावण 13, 1934)  
No. 31] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 4—AUGUST 10, 2012 (SRAVANA 13, 1934)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग III—खण्ड 1

### [PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के  
संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएँ]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public  
Service Commission, the Indian Railways and by Attached and Subordinate Offices of the  
Government of India]

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली-110003, दिनांक 13 जुलाई 2012

सं. डीपी/पर्स-1/2012/0060/3/31/2004--श्री अशोक कुमार, भा.पु.  
सेवा (तमिलनाडु : 1982) ने केंद्र में अनुमोदित कार्यकाल पूरा कर लेने  
पर दिनांक 04.07.2012 के अपराह्न से संयुक्त निदेशक, के.अ. ब्यूरो,  
चेन्नई के कार्यालय का कार्यभार छोड़ दिया है।

एम. सचदेव

प्रशासन अधिकारी (कार्मिक)

सं. डीपी/पर्स-1/2012/0061/3/46/2006--श्री सुरेन्द्र पॉल ने  
अधिवर्षिता की आयु पूरी कर लेने पर दिनांक 30.06.2012 के अपराह्न  
से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, के.अ. ब्यूरो के पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

एम. सचदेव

प्रशासन अधिकारी (कार्मिक)

सं. डीपी/पर्स-1/2012/62/3/158/2011--श्री बलजिंदर सिंह सरा,  
वरिष्ठ लोक अभियोजक, के.अ. ब्यूरो, ईओडब्ल्यू कोलकाता के दिनांक  
29.05.2012 को त्यागपत्र देने पर वरिष्ठ लोक अभियोजक, के.अ. ब्यूरो  
के पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

एम. सचदेव

प्रशासन अधिकारी (कार्मिक)

सं. डीपी/पर्स-1/2012/63/3/25/2005--श्री एन. एन. कोमार, भा.पु.  
सेवा (गुजरात : 1996) ने केंद्र में अनुमोदित कार्यकाल पूरा कर लेने  
पर दिनांक 28.03.2012 के अपराह्न से पुलिस महानिरीक्षक, के.अ. ब्यूरो,  
बीएसएंडएफसी बैंगलोर के कार्यालय का कार्यभार छोड़ दिया है।

एम. सचदेव

प्रशासन अधिकारी (कार्मिक)

सं. डीपी/पर्स-1/2012/64/3/8/2007--श्री गणेश वर्मा ने अधिवर्षिता की आयु पूरी कर लेने पर दिनांक 30.06.2012 के अपराह्न से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, के.अ. ब्यूरो के पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

एम. सचदेव  
प्रशासन अधिकारी (कार्मिक)

दिनांक 16 जुलाई 2012

सं. डीपी/पर्स-1/2012/65/3/32/2005--श्री सुमित सरन, भा.पु. सेवा (तमिलनाडु : 1997) ने केंद्र में अनुमोदित कार्यकाल पूरा कर लेने पर दिनांक 03.07.2012 के अपराह्न से पुलिस महानिरीक्षक, के.अ. ब्यूरो, भ्र.नि. शाखा, नई दिल्ली के कार्यालय का कार्यभार छोड़ दिया है।

एम. सचदेव  
प्रशासन अधिकारी (कार्मिक)

गृह मंत्रालय

(सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी)

हैदराबाद-500052, दिनांक 19 जुलाई 2012

सं. 15011/10/2012-स्था.--महानिदेशालय, सीमा सुरक्षा बल, नई दिल्ली के आदेश संख्या-11/7041/2000-पर्स/सी.सु.बल/21123-52 दिनांक 09 अप्रैल, 2012 के अनुसरण में श्री तेजपाल डाबर, 41 वाहिनी, सीमा सुरक्षा बल के उप-कमान्डेंट (आई.आर.एल.ए.-10077870) को स.व.प. राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक/उप-कमान्डेंट (सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह-A राजपत्रित, अन-अनुसूचित) के पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर समयानुसार केन्द्रीय सरकार के नियमों के अधीन स्वीकार्य सामान्य भत्तों सहित पे-बैंड-3, रुपए 15,600--39,100/- + ग्रेड पे, रुपए 6,600 /- में प्रतिनियुक्ति की सामान्य शर्तों पर तीन वर्ष के लिए या अगला आदेश जारी होने तक, इनमें से जो भी पहले लागू हो, 12 जुलाई, 2012 पूर्वाह्न से अकादमी में नियुक्त किया जाता है।

2. उन्हें यह विकल्प दिया जाता है कि वे अपने पैतृक वेतनमान या अकादमी में प्रतिनियुक्ति के पद पर वेतनमान यथा पे-बैंड-3, रुपए 15,600--39,100/- + ग्रेड-पे रुपए 6,600/- संबद्ध नियमों के अधीन लागू होने वाले अन्य भत्तों के सहित ले सकते हैं। इस विकल्प का सुनिश्चयन नियुक्ति के एक महीने के भीतर कर देना चाहिए और एक बार सुनिश्चित होने पर यह अंतिम एवं बाध्य होगा।

वी. एन. राय  
निदेशक

महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 17 जुलाई 2012

सं. पी.सात-1/2012-मंत्रा.--सूबेदार मेजर (मंत्रालयिक) से सहायक कमान्डेंट (मंत्रालयिक) के पद पर पदोन्नति होने के फलस्वरूप निम्नलिखित सूबेदार मेजर (मंत्रालयिक) ने प्रत्येक के सामने दर्शाए गए

कार्यालय में दर्शाई गई तिथियों को सहायक कमान्डेंट (मंत्रालयिक) का कार्यभार ग्रहण कर लिया है :--

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	कार्यालय जहां कार्यभार संभाला	कार्यग्रहण करने की तिथि
1.	श्री बालम सिंह रावत, सहायक कमान्डेंट (मंत्रालयिक), ईरला-9150	कार्यालय पुलिस उप महानिरीक्षक, द्रुत कार्य बल/केन्द्र, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, नई दिल्ली	25.06.2012 (पूर्वाह्न)
2.	श्री बिरेन्द्र कुमार, सहायक कमान्डेंट (मंत्रालयिक), ईरला-9145	कार्यालय पुलिस उप महानिरीक्षक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, कुटा (जम्मू)	11.06.2012 (पूर्वाह्न)
3.	श्री टी. डी. पैते, सहायक कमान्डेंट (मंत्रालयिक), ईरला-9140	कार्यालय पुलिस उप महानिरीक्षक, ग्रुप केन्द्र, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, कुटा (जम्मू)	25.06.2012 (पूर्वाह्न)
4.	श्री डी. करुणामूर्ति, सहायक कमान्डेंट (मंत्रालयिक), ईरला-9148	कमान्डेंट 05 बटालियन, एन.डी.आर.एफ., तालेगांव (पूने)	21.06.2012 (पूर्वाह्न)
5.	श्री विजय कुमार मिश्रा, सहायक कमान्डेंट (मंत्रालयिक), ईरला-9139	कार्यालय पुलिस उप महानिरीक्षक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, काठगोदाम	27.06.2012 (पूर्वाह्न)
6.	श्री बख्त सिंह बघेल, सहायक कमान्डेंट (मंत्रालयिक), ईरला-9136	कार्यालय पुलिस उप महानिरीक्षक, ग्रुप केन्द्र, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, रायपुर	30.06.2012 (पूर्वाह्न)

सतपाल कपूर  
पुलिस उप महानिरीक्षक (संगठन)

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग

कार्यालय, प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), दिल्ली

नई दिल्ली-110002, दिनांक 5 जुलाई 2012

सं. प्रशासन का.आ. सं.-34--निवर्तन आयु प्राप्त करने पर इस कार्यालय के श्री सतीश चन्द जैन, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी दिनांक 31.07.2012 के अपराह्न में सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएंगे।

उनकी जन्म तिथि 02.07.1952 तथा सरकारी सेवा में प्रवेश की तिथि 31.03.1973 है।

तेग सिंह  
उप-महालेखाकार (प्रशा.)

कार्यालय, प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा एवं पदेन सदस्य लेखा परीक्षा बोर्ड-II

कोलकाता-700020, दिनांक 17 अक्टूबर 2011

सं. 242/सी/एडमिन/भर्ती/हिन्दी/2011--कार्यालय, प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा एवं पदेन सदस्य लेखा परीक्षा बोर्ड-II, कोलकाता

के कार्यालय आदेश संख्या 132 दिनांक 17.10.2011 के अनुसरण में श्री राजीव रंजन, कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक ने पदोन्नति पर हिन्दी अधिकारी के पद पर वेतन बैंड-2, (रु. 9,300--34,800/-) तथा श्रेणी वेतन रु. 4,800/- में दिनांक 17.10.2011 (पूर्वाह्न) को कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

ह./- अपठनीय  
प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा  
एवं पदेन सदस्य लेखा परीक्षा बोर्ड-II

प्रधान महालेखाकार (सा. एवं सा.क्षे.ले.प.) का कार्यालय, आंध्र प्रदेश

हैदराबाद-500004, दिनांक 17 जुलाई 2012

सं. प्रशा. I/प्रोन्नति/एफ.60/2012-13/66--प्रधान महालेखाकार ने सहर्ष निम्नलिखित सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों (सिविल) को रु. 5,400/- के ग्रेड पे के साथ रु. 9,300--34,800/- के पे बैंड-2 में स्थानापन्न लेखापरीक्षा अधिकारी (सिविल) के रूप में कार्य करने हेतु प्रोन्नत किया है। प्रोन्नति उनके नामों के सामने दी गई तिथि से प्रभावी होगी :-

क्र. सं.	नाम	कार्यालय आदेश सं./दिनांक	कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
	श्री/श्रीमती/कु.		
1.	सी. एच. लक्ष्मी नरसिम्हा राव	153/31.01.2012	01.02.2012
2.	एल. पदमावती	43/27.06.2012	28.06.2012
3.	एम. विजय आनंद	43/27.06.2012	28.06.2012
4.	एस. कृष्ण मोहन राव	43/27.06.2012	27.06.2012
5.	एम. एस. कुमार देवन	43/27.06.2012	29.06.2012

उपरोक्त प्रोन्नति आदेश उनके वरिष्ठों के दावों, यदि कोई हों, के प्रति पक्षपात से रहित है तथा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय/भारत के सर्वोच्च न्यायालय/केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण इत्यादि में लंबित रिट याचिकाओं, यदि कोई हों, के परिणाम के अधीन है।

क्रम सं. 1, 2 और 4 के कर्मचारी वेतन के पुनः निर्धारण के योग्य नहीं हैं क्योंकि डीओपीटी के का.ज्ञा. सं. 35034/3/2008-स्था.(डी) दिनांक 19.05.2010 के अनुसार एमएसीपी के तहत उन्हें पहले ही वित्तीय उन्नयन दिया जा चुका है।

क्रम सं. 3 और 5 के कर्मचारी/कर्मचारियों को भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन सं. एफ.सं. 1/1/80-1सी दिनांक 13.09.2008 की शर्तों के तहत अपने प्रोन्नति के दिन से एक महीने के अन्दर वेतन निर्धारण के विकल्प देना चाहिए।

अनीता बालाकृष्णा  
व. उप महालेखाकार (प्रशा.)

सं. प्रशा. I/पदो./8-132/एफ.59/2012-2013/67--प्रधान महालेखाकार (सा. एवं सा.क्षे.ले.प.), आंध्र प्रदेश, हैदराबाद ने सहर्ष निम्नलिखित

व. लेखापरीक्षा अधिकारियों को उनके नामों के सामने दी गई तिथि के प्रभाव से सेवानिवृत्त करने की घोषणा की है :-

क्रम सं.	नाम	सेवानिवृत्ति की तिथि
	श्री/श्रीमती/कु.	
1.	सी. साराबौंडु राजु	31.05.2012
2.	एन. मधुसुधन	30.06.2012
3.	एन. माचरेला	30.06.2012
4.	मेरिगा शास्त्री	30.06.2012
5.	जी. किरण कुमारी	30.06.2012

अनीता बालाकृष्णा  
व. उप महालेखाकार (प्रशा.)

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) का कार्यालय, ओडिशा

पुरी, दिनांक 16 मार्च 2012

सं. डब्ल्यू.एम.47-2-डीए/डीएओ-ईओ-1571--इस कार्यालय के दिनांक 12.03.2012 का कार्यालय आदेश सं. डब्ल्यू.एम.-242 के अनुसार प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) ओडिशा, भुवनेश्वर ने श्री रवि नारायण साहु मंडल लेखा अधिकारी ग्रेड-1 को वरिष्ठ मंडल लेखा अधिकारी (ग्रुप-ख राजपत्रित) के पद पर वेतन बैंड-3 (रु. 15,600--39,100/-) जमा रु. 5,400/- ग्रेड वेतन पर दिनांक 13.03.2012 पूर्वाह्न से उनके वरिष्ठों के दावों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अगले आदेश तक सहर्ष स्थानापन्न करने की अनुमति प्रदान करते हैं।

पदाधिकारी को वेतन नियतन सुविधा की अनुमति नहीं है जैसाकि उनको एमएसीपी योजना के तहत तीसरी वेतन उन्नयन की मंजूरी दी गई है।

ह./- अपठनीय  
उप-महालेखाकार (निर्माण लेखा)

सं. डब्ल्यू.एम.47-2-डीए/डीएओ-ईओ-1573--इस कार्यालय के दिनांक 12.03.2012 का कार्यालय आदेश सं. डब्ल्यू.एम.-243 के अनुसार प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) ओडिशा, भुवनेश्वर ने श्री महेश चन्द्र मिश्रा मंडल लेखा अधिकारी ग्रेड-1 को वरिष्ठ मंडल लेखा अधिकारी (ग्रुप-ख राजपत्रित) के पद पर वेतन बैंड-3 (रु. 15,600--39,100/-) जमा रु. 5,400/- ग्रेड वेतन में दिनांक 01.02.2012 पूर्वाह्न से उनके वरिष्ठों के दावों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अगले आदेश तक सहर्ष स्थानापन्न करने की अनुमति प्रदान करते हैं।

पदाधिकारी को वेतन नियतन सुविधा की अनुमति नहीं है जैसाकि उनको एमएसीपी योजना के तहत तीसरी वेतन उन्नयन की मंजूरी दी गई है।

ह./- अपठनीय  
उप-महालेखाकार (निर्माण लेखा)

दिनांक 23 मई 2012

सं. डब्ल्यू.एम.47-2-डीए/डीएओ-ईओ-408--इस कार्यालय के दिनांक 12.04.2012 का कार्यालय आदेश सं. डब्ल्यू.एम.-7 के अनुसार प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) ओडिशा, भुवनेश्वर ने श्री अरविन्द ज्योतिषी मंडल लेखा अधिकारी ग्रेड-I को वरिष्ठ मंडल लेखा अधिकारी (ग्रुप-ख राजपत्रित) के पद पर वेतन बैंड-3 (रु. 15,600--39,100/-) जमा रु. 5,400/- ग्रेड वेतन पर दिनांक 16.04.2012 पूर्वाह्न से उनके वरिष्ठों के दावों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अगले आदेश तक सहर्ष स्थानापन्न करने की अनुमति प्रदान करते हैं।

पदाधिकारी को वेतन नियतन सुविधा की अनुमति नहीं है जैसाकि उनको एमएसीपी योजना के तहत तीसरी वेतन उन्नयन की मंजूरी दी गई है।

ह./- अपठनीय  
उप-महालेखाकार (निर्माण लेखा)

सं. डब्ल्यू.एम.47-2-डीए/डीएओ-ईओ-410--इस कार्यालय के दिनांक 12.04.2012 का कार्यालय आदेश सं. डब्ल्यू.एम.-08 के अनुसार प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) ओडिशा, भुवनेश्वर ने श्री पी. आर. एस. पी. राव मंडल लेखा अधिकारी ग्रेड-1 को वरिष्ठ मंडल लेखा अधिकारी (ग्रुप-ख राजपत्रित) के पद पर वेतन बैंड-3 (रु. 15,600--39,100/-) जमा रु. 5,400/- ग्रेड वेतन पर दिनांक 12.04.2012 पूर्वाह्न से उनके वरिष्ठों के दावों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अगले आदेश तक सहर्ष स्थानापन्न करने की अनुमति प्रदान करते हैं।

पदाधिकारी को वेतन नियतन सुविधा की अनुमति नहीं है जैसाकि उनको एमएसीपी योजना के तहत तीसरी वेतन उन्नयन की मंजूरी दी गई है।

ह./- अपठनीय  
उप-महालेखाकार (निर्माण लेखा)

सं. डब्ल्यू.एम.47-2-डीए/डीएओ-ईओ-414--इस कार्यालय के दिनांक 18.04.2012 का कार्यालय आदेश सं. डब्ल्यू.एम.-10 के अनुसार प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) ओडिशा, भुवनेश्वर ने श्री गोपाल चन्द्र मिश्रा, मंडल लेखा अधिकारी ग्रेड-I को वरिष्ठ मंडल लेखा अधिकारी (ग्रुप-ख राजपत्रित) के पद पर वेतन बैंड-3 (रु. 15,600--39,100/-) जमा रु. 5,400/- ग्रेड वेतन पर दिनांक 19.04.2012 पूर्वाह्न से उनके वरिष्ठों के दावों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अगले आदेश तक सहर्ष स्थानापन्न करने की अनुमति प्रदान करते हैं।

पदाधिकारी को वेतन नियतन सुविधा की अनुमति नहीं है जैसाकि उनको एमएसीपी योजना के तहत तीसरी वेतन उन्नयन की मंजूरी दी गई है।

ह./- अपठनीय  
उप-महालेखाकार (निर्माण लेखा)

सं. डब्ल्यू.एम.47-2-डीए/डीएओ-ईओ-424--इस कार्यालय के दिनांक 03.04.2012 का कार्यालय आदेश सं. डब्ल्यू.एम.-03 के अनुसार प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) ओडिशा, भुवनेश्वर ने श्री वैश्वनाव चिता शर्मा, मंडल लेखा अधिकारी, ग्रेड-2 को मंडल लेखा

अधिकारी ग्रेड-1 (ग्रुप-ख राजपत्रित) के पद पर वेतन बैंड-2 (रु. 9,300--34,800/-) जमा रु. 4,800/- के ग्रेड वेतन में दिनांक 03.04.2012 पूर्वाह्न से उनके वरिष्ठों के दावों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अगले आदेश तक सहर्ष स्थानापन्न करने की अनुमति प्रदान करते हैं।

ह./- अपठनीय  
उप-महालेखाकार (निर्माण लेखा)

दिनांक 29 मई 2012

शुद्धिपत्र

सं. डब्ल्यू.एम.47-2-डीए/डीएओ-493--इस कार्यालय के दिनांक 16.03.2012 के ई. ओ. सं. 17 में श्री महेश चन्द्र मिश्र को मंडल लेखा अधिकारी ग्रेड-1 से वरिष्ठ मंडल लेखा अधिकारी पर पदोन्नत तारीख 01.02.2012 पूर्वाह्न दर्शाया गया और दिनांक 16.03.2012 का ज्ञापन सं. डब्ल्यू.एम.-47-2-डी.ए./डी.ए.ओ. 1573 और 1574 (9) द्वारा संप्रेषित दिनांक 16.03.2012 का 01.02.2012 के बदले में 13.03.2012 पूर्वाह्न माना जाए।

उपरोक्त ई. ओ. में उल्लेख बाकी सभी अवधि और शर्तों का परिवर्तन नहीं होगा।

ह./- अपठनीय  
उप-महालेखाकार (निर्माण लेखा)

रक्षा मंत्रालय

(आयुध निर्माणी बोर्ड)

कोलकाता-700001, दिनांक 29 जून 2012

सं. 134/पुष्टि/एम--राष्ट्रपति, आयुध निर्माणी संगठन में डॉ. एस. के. वर्मानी, चिकित्सा अधिकारी की सहायक सर्जन ग्रेड-I/कनिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (जे.एम.ओ.) के ग्रेड में रु. 650-1200 के वेतनमान में दिनांक 01.10.1978 से पुष्टि करते हैं।

उपेंद्र कुमार  
निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं  
कृते महानिदेशक, आयुध निर्माणियां

वाणिज्य विभाग (पूर्ति प्रभाग)

(पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 23 जुलाई 2012

सं. ए-19015/2/2012-प्रशा.-II--महामहिम राष्ट्रपति सुश्री जया चौधरी को दिनांक 02.07.2012 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश तक स्थानापन्न रूप में पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय, नई दिल्ली में भारतीय निरीक्षण सेवा (समूह-क) के कनिष्ठ समयमान में सहायक निदेशक (गु.आ.) (ग्रेड-I) (इंजीनियरिंग) के पद पर (वेतन बैंड पीबी-3 रु. 15,600--39,100/- एवं ग्रेड वेतन रु. 5,400/-) सहर्ष नियुक्त करते हैं। सुश्री जया चौधरी को नई पेंशन स्कीम (डी.सी.पी.एस.), 2004 के तहत लिया जाएगा।

के. ए. सत्य सुलोचना  
उप निदेशक (प्रशासन)

कृते पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय

कृते महानियंत्रक

खान मंत्रालय

संस्कृति मंत्रालय

(संस्कृति विभाग)

(भारतीय खान ब्यूरो)

भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण

नागपुर, दिनांक 18 जुलाई 2012

कोलकाता-700016, दिनांक 19 जुलाई 2012

सं. ए-19012/518/2011-स्था. ए--सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, नई दिल्ली के कार्यालय आदेश संख्या 12015/01/2011- आईएसएस दिनांक 30.08.2011 के अनुपालन में श्री एम. वी. सोनकुसले, ने तदर्थ आधार पर भारतीय खान ब्यूरो में दिनांक 26.09.2011 (पूर्वाह्न) से सहायक खनिज अर्थशास्त्रि (सां) के पद पर कार्यभार ग्रहण किया है।

सं. 4-363/2011/स्था.--निदेशक, भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण, सहर्ष सर्वेक्षण के मुख्यालय कोलकाता में कार्यरत श्री रबीन मुखर्जी, कार्यालय अधीक्षक को कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, ग्रुप-बी (राजपत्रित) वेतनमान रु. 6,500-200-10,500/- (पूर्व संशोधित) तद्नरूप पे बैंड पीबी-2 (9,300--34,800/- रु.) (संशोधित) ग्रेड पे 4,600/- रु. के पद पर पूर्वी क्षेत्रीय केन्द्र, कोलकाता में पूर्वाह्न 19 जून, 2012 से तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक नियुक्त करते हैं।

संजय कुमार सिंह

सहायक प्रशासनिक अधिकारी

कृते महानियंत्रक

डी. एन. पाण्डेय

कार्यालय अध्यक्ष

सं. ए-19012/377/2004-स्था. ए--सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, नई दिल्ली के कार्यालय आदेश संख्या 12015/01/2012- आईएसएस दिनांक 30.05.2012 के अनुपालन में श्री एस. एल. खडगी, ने तदर्थ आधार पर भारतीय खान ब्यूरो में दिनांक 01.06.2012 (पूर्वाह्न) से सहायक खनिज अर्थशास्त्रि (सां) के पद पर कार्यभार ग्रहण किया है।

संजय कुमार सिंह

सहायक प्रशासनिक अधिकारी

कृते महानियंत्रक

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र

मुम्बई-400085, दिनांक 10 जुलाई 2012

सं. पीडी/विविध/2012-भर्ती-IV/5981--राष्ट्रपति, श्री छन्नागिरी लक्ष्मणा सेट्टी अरुणा कुमार को आरएमपी, मैसूर, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र में तकनीकी अधिकारी श्रेणी 'डी' के पद पर रु. 15,600--39,100/- + रु. 6,600/- ग्रेड पे के वेतनमान में 13 जनवरी, 2012 के पूर्वाह्न से, आगामी आदेशों तक, अस्थाई रूप में नियुक्त करते हैं।

शैलजा प्रकासम

उप स्थापना अधिकारी

परमाणु ऊर्जा विभाग

मुम्बई-400001, दिनांक 11 जुलाई 2012

सं. ए-19012/356/2011-स्था. एपीपी--श्री वी. जे. भट, सहायक अनुसंधान अधिकारी (अयस्क प्रसाधन), भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर वार्धक्य आयु प्राप्त होने पर सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप दिनांक 30.06.2012 (अपराह्न) से कार्यभार मुक्त हो गए हैं।

संजय कुमार सिंह

सहायक प्रशासनिक अधिकारी

कृते महानियंत्रक

सं. 6(2606)/2012-प्रशा./126--राष्ट्रपति, श्री के. ए. प्रसाद सिन्हा, आईएसएस (पीबी-92) को दिनांक 28 जून, 2012 के पूर्वाह्न से प्रभावी रूप में दिनांक 15.03.2013 तक अथवा अगले आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए वेतन बैंड (पीबी-4 : रु. 37,400--67,000/- + ग्रेड वेतन रु. 10,000/-) में परमाणु ऊर्जा विभाग, शाखा सचिवालय, नई दिल्ली में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

वी. गोविंदनकुट्टी

अवर सचिव

दिनांक 19 जुलाई 2012

सं. ए-19012/516/2011-स्था. ए--सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, नई दिल्ली के कार्यालय आदेश संख्या 12015/01/2011- आईएसएस दिनांक 30.08.2011 के अनुपालन में श्री जे. के. भगोरा, ने तदर्थ आधार पर भारतीय खान ब्यूरो में दिनांक 11.10.2011 (पूर्वाह्न) से सहायक खनिज अर्थशास्त्रि (सां) के पद पर कार्यभार ग्रहण किया है।

संजय कुमार सिंह

सहायक प्रशासनिक अधिकारी

भारी पानी बोर्ड

मुम्बई-400094, दिनांक 30 अगस्त 2011

आदेश

सं. भापाबो/औ.सं./4(18)(37)/666--जबकि श्री दिलीप सदाशिव राणे, सहायक सुरक्षा अधिकारी-ए, भारी पानी संयंत्र (तूतीकोरिन) के विरुद्ध

दिनांक 12.03.2009 के ज्ञापन सं. भापाबो/औ.सं./4(18)(37)/208 द्वारा केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 1965 के नियम 14 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही शुरू की गई। उनके विरुद्ध लगाये गये कदाचार अथवा दुर्व्यवहार का अभ्यारोपण निम्नवत है :--

#### अनुच्छेद-I

“कि भारी पानी संयंत्र (बड़ौदा) में कार्य करते हुए उक्त श्री दिलीप सदाशिव राणे, सहायक सुरक्षा अधिकारी/ए, भारी पानी संयंत्र (तूतीकोरिन) को जनहित में दिनांक 05.02.2008 के कार्यालय आदेश भापाबो/भर्ती/10(6)/ब-76/2008/105 द्वारा भापासं(तू) में स्थानांतरण किया गया तथा दिनांक 06.02.2008 से उनकी कार्यमुक्ति पर उन्हें महाप्रबंधक, भारी पानी संयंत्र (तूतीकोरिन) को ड्यूटी पर रिपोर्ट करने का निदेश दिया गया। तथापि, श्री राणे ने दिनांक 22.02.2008 (पूर्वाह्न) को उन्हें देय 15 दिनों की कार्यग्रहण अवधि बिताने के बाद भी कार्यभार ग्रहण नहीं किया तथा बिना किसी पूर्व अनुमति अथवा छुट्टी की मंजूरी के अपनी कार्यभार ग्रहण अवधि को आगे बढ़ाया तथा दिनांक 20.03.2008 (पूर्वाह्न) को भापासं (तूतीकोरिन) में रिपोर्ट की।

#### अनुच्छेद-II

“कि उक्त श्री दिलीप सदाशिव राणे ने सहायक सुरक्षा अधिकारी/ए, भारी पानी संयंत्र (तूतीकोरिन) के रूप में कार्य करते हुए दिनांक 18.04.2008 से 09.05.2008 (एवं 17.04.2008 के प्रिफिक्स तथा दिनांक 10 एवं 11.05.2008 से सफिक्स के साथ) 22 दिनों की अर्जित छुट्टी के लिए आवेदन किया। उनकी छुट्टी पात्रता के अधीन मंजूर की गयी। श्री राणे को स्वीकृत छुट्टी की समाप्ति के बाद दिनांक 12.05.2008 को कार्यभार ग्रहण करना था। श्री राणे ने स्वीकृत छुट्टी की समाप्ति के बाद भी कार्यभार ग्रहण नहीं किया तथा अपना अता-पता अपने कार्यालय को भी नहीं बताया। इस प्रकार श्री राणे अप्राधिकृत रूप से अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित रहे तथा दिनांक 10.05.2008 तक की स्वीकृत छुट्टी से लेकर आज तक अनुपस्थित हैं।

उनके पूर्व उपरोक्त कार्य द्वारा उक्त श्री दिलीप सदाशिव राणे ने ड्यूटी के प्रति निष्ठा, कर्तव्यपरायणता की कमी दिखाई है तथा एक सरकारी कर्मचारी के लिए अशोभनीय आचरण दिखाते हुए केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964, के नियम 3(1) (i), (3) (1) (ii), एवं 3(1) (iii) का उल्लंघन किया है।

केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 1965 के नियम 14 के अंतर्गत दिनांक 12.03.2009 के ज्ञापन के द्वारा एक आरोप पत्र जारी किया गया। उक्त श्री दिलीप सदाशिव राणे को दिनांक 12.03.2009 के ज्ञापन की प्राप्ति के 10 दिनों के अंदर अभ्यावेदन, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया।

तथा जबकि आरोप पत्र का ज्ञापन, दिनांक 12.03.2009 को रजिस्टर्ड पोस्ट ए/डी द्वारा कार्यालय अभिलेखों के अनुसार उनके पत्तों पर श्री राणे को भेजा गया। उनके पत्तों पर भेजे गए लिफाफे डाक प्राधिकारियों की “छोड़ दिया”/“दावा नहीं किया गया प्रेषक को वापस किया गया” अभियुक्ति के साथ बिना सुपुर्दगी के वापस प्राप्त हुए। आरोप पत्र निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार स्थानीय समाचार पत्र में दिनांक 20.06.2009

को प्रकाशित किया गया।

तथा जबकि विभागीय कार्यवाहियों पर दिशा-निर्देशों के अनुसार एक पक्षीय जाँच की गई चूँकि श्री राणे जाँच कार्यवाही में उपस्थित नहीं हुए। जाँच प्राधिकारियों ने नियमानुसार जाँच कार्यवाही संपन्न की तथा दिनांक 07.12.2010 के पत्र सं. भापासंता/टीएमएम/जाँच/2010/सी-92 द्वारा जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत की। जाँच रिपोर्ट के अनुसार जाँच प्राधिकारी इस निर्णय पर पहुंचे कि श्री राणे के विरुद्ध लगाये गये दो आरोप निःसंदेह सिद्ध हुए हैं।

तथा जबकि जाँच रिपोर्ट की एक प्रति दिनांक 04.05.2011 के ज्ञापन द्वारा श्री सदाशिव राणे, सहायक सुरक्षा अधिकारी/ए, भापासं (तूतीकोरिन) के तीन ज्ञात पत्तों पर इस निदेश के साथ भेजी गई थी कि दिनांक 04.05.2011 के ज्ञापन की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर जाँच रिपोर्ट पर लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन अथवा प्रस्तुतीकरण, यदि कोई हो, प्रस्तुत करें। सभी तीन ज्ञात पत्तों पर भेजी गई जाँच रिपोर्ट क्रमशः (i) दावा नहीं किया गया (ii) अपूर्ण पता तथा (iii) छोड़ दिया की अभ्युक्ति के साथ बिना सुपुर्दगी के वापस हुई। चूँकि जाँच रिपोर्ट श्री दिलीप सदाशिव राणे द्वारा प्राप्त नहीं की गई तथा उनका अता-पता ज्ञात नहीं है, अतः जाँच रिपोर्ट पर लिखित अभ्यावेदन/प्रस्तुतीकरण का प्रश्न ही नहीं उठता है।

तथा जबकि श्री राणे अपने दिनांक 23.06.2009 के अपने पत्र द्वारा अपना पता बताये बिना ही स्वयं को कार्यमुक्त करने तथा बकाया समायोजित करने के अनुरोध के साथ अपना त्यागपत्र प्रस्तुत किया जो दिनांक 30.06.2009 को भापासं (तूतीकोरिन) में प्राप्त हुआ।

तथा जबकि अद्योहस्ताक्षरी ने अनुशासनिक प्राधिकारी के रूप में जाँच प्राधिकारी के जाँच निष्कर्षों को पढ़ा तथा उपलब्ध रिकार्ड एवं कागजातों/साक्षियों को देखने के बाद निम्न रूप में मामले को रिकार्ड किया :--

आरोपों के अनुच्छेद के अनुसार दिनांक 05.02.2008 के कार्यालय आदेश द्वारा दिलीप सदाशिव राणे, सुरक्षा अधिकारी/ए, भारी पानी संयंत्र (तूतीकोरिन) को जनहित में अपने स्थानांतरण तथा दिनांक 06.02.2008 (अप.) से अपने कार्यमुक्ति पर उन्हें देय 15 दिनों की सामान्य कार्यभार ग्रहण अवधि बिताने के बाद दिनांक 22.02.2008 (पूर्वा.) को भापासं (तूतीकोरिन) में ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करनी थी।

तथापि, उनके दिनांक 05.02.2008 के स्थानांतरण आदेश के अनुसार दिनांक 22.02.2008 को भापासं (तूतीकोरिन) में कार्यभार ग्रहण करने के बजाय, श्री राणे ने दिनांक 14.02.2008 के फैंक्स के द्वारा अपरिहार्य घरेलू समस्याओं के आधार पर उन्हें दिनांक 19.02.2008 से 04.03.2008 तक 18 दिनों की छुट्टी देने के लिए अनुरोध किया।

सहायक कार्मिक अधिकारी, भापासं (तूतीकोरिन) ने दिनांक 19.02.2008 के तार सं. भापासं/स्था./1440 द्वारा श्री राणे को सूचित किया कि दिनांक 19.02.2008 से 04.03.2008 तक की छुट्टी हेतु उनका अनुरोध स्वीकार नहीं किया जा सका चूँकि उस पर उनके भापासं (तूतीकोरिन) में कार्यभार ग्रहण करने के बाद विचार किया जा सकता है तथा उन्हें दिनांक 19.02.2008 को कार्यभार ग्रहण करने की भी सलाह दी गई।

सहायक कार्मिक अधिकारी, भापासं (तूतीकोरिन) द्वारा श्री राणे को तुरंत कार्यभार ग्रहण करने के लिए दिनांक 18/19.02.2008 को तार भेजने

के बावजूद, वे अप्राधिकृत रूप से लगातार अनुपस्थित रहे तथा इस प्रकार कार्यग्रहण अवधि के बाद भी अनुपस्थित रहे तथा भापासं (तूतीकोरिन) में दिनांक 20.03.2008 (पूर्वाह्न) को कार्यभार ग्रहण किया और इस प्रकार उन्होंने केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली के नियम 3(1) के प्रावधानों का उल्लंघन किया है।

आगे, श्री दिलीप सदाशिव राणे ने सहायक सुरक्षा अधिकारी/ए, भारी पानी संयंत्र (तूतीकोरिन) के रूप में कार्य करते हुए, भारी पानी संयंत्र (बड़ौदा) से स्थानांतरण के उपरांत अपने परिवार को लाने तथा भारी पानी संयंत्र (तूतीकोरिन) में कार्यभार ग्रहण करने हेतु दिनांक 26.03.2008 को दिनांक 16 एवं 17.04.2008 प्रिफिक्स तथा 10 एवं 11.05.2008 सफिक्स के साथ दिनांक 18.04.2008 से 09.05.2008 तक 22 दिनों की अर्जित छुट्टी के लिए आवेदन किया, जिसमें छुट्टी के दौरान पता-सी/304, गीतांजली अपार्टमेंट, नोविनो, तरसाली रोड़, मकरपुरा बड़ौदा बताया गया।

उनकी छुट्टी पात्रता के अधीन मंजूर की गई। दिनांक 16 एवं 17.04.2008 प्रिफिक्स तथा 10 एवं 11.05.2008 सफिक्स के साथ दिनांक 18.04.2008 से 09.05.2008 तक ही 22 दिनों की अर्जित छुट्टी बिताने के बाद श्री राणे को दिनांक 12.05.2008 को कार्यभार ग्रहण करना था। दिनांक 12.05.2008 को कार्यभार ग्रहण करने के बजाए श्री राणे ने अपने दिनांक 06.05.2008 के तार के द्वारा अपनी कुछ अपरिहार्य व्यक्तिगत/घरेलू समस्याओं के आधार पर 45 दिनों की असाधारण छुट्टी को बढ़ाने के लिए अनुरोध किया।

तथापि, उनके तार पर उनके आसन वरिष्ठ एवं सुरक्षा अधिकारी, भापासं (तूतीकोरिन) की अभ्युक्ति थी कि “अनुरोध स्वीकार करने की सिफारिश नहीं की जाती है तथा यथा उपयुक्त कार्रवाई की जाए।”

तदनुसार प्रशासनिक अधिकारी, भापासं (तूतीकोरिन) ने श्री राणे के छुट्टी के दौरान पता-सी/304, गीतांजली अपार्टमेंट, नोविनो, तरसाली रोड़, मकरपुरा, बड़ौदा पर भेजे गये अपने दिनांक 24.05.2008 के तार सं. भापासंतूती/स्था./डी-16/3831 द्वारा श्री राणे को सूचित किया कि उनके तार के द्वारा मांगा गया छुट्टी विस्तार संस्वीकृत नहीं किया गया है तथा इसलिए उन्हें तुरन्त कार्यभार ग्रहण करने की सलाह दी। उपरोक्त तार की एक प्रति रजिस्टर्ड डाक प्राप्त स्वीकृति द्वारा उनके छुट्टी के पते पर मकरपुरा, बड़ौदा भी भेजी गई। तथापि इसे “छोड़ दिया” की अभ्युक्ति सहित डाक विभाग द्वारा बिना सुपुर्दगी के वापस किया गया।

प्रशासनिक अधिकारी, भापासं (तूतीकोरिन) से एक अन्य तार दिनांक 11.06.2008 को श्री राणे को मकरपुरा स्थित छुट्टी पते एवं उनके C/o श्रीमती पी. वी. नेहते, 16/बी, चैताबा कॉलोनी, महाबल, जलगांव-42500 स्थित पते पर भी उन्हें यह सूचित करते हुए कि तुरन्त कार्यभार ग्रहण करें अन्यथा उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी, भेजा गया। इसकी एक प्रति उन्हें उनके उपरोक्त दोनों पतों पर रजिस्टर्ड पोस्ट/एडी द्वारा भी भेजी गई। तथापि, मकरपुरा एवं जलगांव पतों पर भेजा गया तार डाक विभाग द्वारा “छोड़ दिया” की अभ्युक्ति सहित बिना सुपुर्दगी के वापस किया गया।

श्री राणे ने सुरक्षा अधिकारी, भापासं (तूतीकोरिन) को संबोधित करते हुए दिनांक 12.06.2008 को एक और तार भेजा जिसमें उन्होंने यह सूचित किया की बाध्यकारी घरेलू संकट एवं समस्याओं के कारण वे अगले 03

महिनों तक कार्यभार नहीं ग्रहण कर पायेंगे, तथा 90 दिनों की असाधारण छुट्टी बढ़ाने का अनुरोध किया और यह समस्या बताते हुए कि वे अपना घर खो चुके हैं तथा जैसे उन्हें नया घर मिलता है, वैसे ही वे पता सूचित करेंगे। तार बड़ौदा से बुक किया गया था।

प्रशासन अधिकारी, भापासं (तूतीकोरिन) ने दिनांक 28.08.2008 को श्री राणे को मकरपुरा एवं जलगांव के पते पर यह बताते हुए कि उनके द्वारा दिनांक 12.06.2008 के तार द्वारा किए गए छुट्टी बढ़ाने के अनुरोध को नामंजूर कर दिया गया है और यह सलाह दी कि वे तुरन्त कार्यभार ग्रहण करें अन्यथा उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई शुरू की जाएगी। इस तार की प्रतियां भी उनको उनके उपरोक्त पतों पर रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा भेजी गईं। तथापि दिनांक 28.08.2008 के तार वाला लिफाफा जो श्री राणे को उनके जलगांव के पते पर भेजा गया था, डाक विभाग द्वारा “दावा नहीं किया गया प्रेषक को वापस किया जाता है” की अभ्युक्ति सहित बिना सुपुर्दगी के वापस किया गया। दिनांक 28.08.2008 के तार वाला लिफाफा जो मकरपुरा पते पर भेजा गया था वह “छोड़ दिया” की डाक अभ्युक्ति के साथ बिना सुपुर्दगी के वापस आया।

दिनांक 06.05.2008 एवं 12.06.2008 के अपने तार में उनके द्वारा अनुरोध की गई छुट्टी की समाप्ति के बाद भी कार्यभार ग्रहण करने के बजाय श्री राणे अप्राधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे तथा उन्होंने दिनांक 29.09.2008 को प्रशासन अधिकारी, भापासं (तूतीकोरिन) को संबोधित एक तार के माध्यम से यह सूचित किया कि उनकी पारिवारिक एवं घरेलू समस्याओं के कारण वे कार्यभार ग्रहण नहीं कर पायेंगे तथा तीन महीने की असाधारण छुट्टी के विस्तार की मांग की।

प्रशासन अधिकारी, भापासं (तूतीकोरिन) की ओर से सहायक कार्मिक अधिकारी द्वारा दिनांक 03.10.2008 को श्री राणे को उनके मकरपुरा एवं जलगांव के पतों पर यह सूचित करते हुए तार भेजा गया कि उनके दिनांक 29.09.2008 के तार में उनके द्वारा अनुरोधित छुट्टी का विस्तार मंजूर नहीं किया गया तथा उन्हें सलाह दी गई कि वे तुरन्त कार्यभार ग्रहण करें अन्यथा उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई शुरू की जाएगी। तार की एक प्रति रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा श्री राणे को उनके उपरोक्त पतों पर भेजी गई थी। वह क्रमशः “छोड़ दिया” एवं “दावा नहीं किया गया एवं प्रेषक को वापस भेज दिया गया” की अभ्युक्ति के साथ दोनों स्थानों के डाक विभाग द्वारा बिना सुपुर्दगी के वापस भेज दिया गया।

तार अधिकारी, तूतीकोरिन ने अपने दिनांक 13.10.2008 के पत्र द्वारा प्रशासन अधिकारी, भापासं (तूतीकोरिन) को सूचित किया कि फोनोग्राम सं. 5, दिनांक 04.10.2008 जो श्री दिलीप सदाशिव राणे C/o श्रीमती पी. बी. नेहते, 16/बी सैथारापाव कॉलोनी, महाबली, जलगांव को संबोधित था तार कार्यालय तूतीकोरिन में दिया गया था, उसे सुपुर्द जा सका तथा यह अभ्युक्ति की गयी कि पता अपर्याप्त था एवं प्रेषिती अज्ञात है।

श्री राणे ने, बड़ौदा से बुक पुनः एक तार दिनांक 20.12.2008 को प्रशासन अधिकारी, भापासं (तूतीकोरिन) को भेजा तथा यह सूचित किया कि उनके घरेलू एवं व्यक्तिगत समस्याओं के कारण वे और 90 दिनों तक कार्यभार ग्रहण नहीं कर पाएंगे तथा इस प्रकार 90 दिनों की असाधारण छुट्टी के विस्तार हेतु अनुरोध किया।

श्री राणे ने पुनः दिनांक 23.03.2009 को बड़ौदा से बुक एक तार भेजा जिसमें गंभीर घरेलू समस्याओं के कारण 90 दिनों की असाधारण छुट्टी के विस्तार हेतु अनुरोध किया गया था। प्रशासन अधिकारी-III, भापासं (तूतीकोरिन) ने अपने दिनांक 02.04.2009 के तार द्वारा सूचित किया कि छुट्टी मंजूर नहीं की गई तथा श्री राणे को तुरन्त कार्यभार ग्रहण करने के लिए रिपोर्ट करने की सलाह दी गई। लेकिन श्री राणे, अप्राधिकृत रूप से अपने कार्य से अनुपस्थित रहे।

श्री राणे ने दिनांक 18.04.2008 से 09.05.2008 तक की छुट्टी पर जाते समय अपने छुट्टी के दौरान का पता सी/304, गीतांजली अपार्टमेंट, नोविनो, तरसली रोड, मकरपुरा, बड़ौदा के रूप में दिया था। उन्हें उनके दिनांक 12.06.2008 के तार के अनुसार अपना नया पता सूचित करना चाहिए था। तथापि, आज तक उन्होंने कार्यालय को अपना नया पता नहीं बताया। उनके नये पते के बिना कार्यालय द्वारा उनसे किया गया सरकारी पत्राचार, जिसमें उन्हें कार्यभार ग्रहण करने की सलाह दी गई थी, बिना सुपुर्दगी के डाक प्राधिकारियों द्वारा भापासं (तूतीकोरिन) वापस लौट दिया गया। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि श्री राणे ने जानबूझकर अपना नया पता नहीं बताया ताकि वे कार्य से अपनी अप्राधिकृत अनुपस्थिति के दौरान कार्यालय द्वारा किये गये सरकारी पत्राचार को प्राप्त करने से बच सकें।

श्री राणे ने अपने दिनांक 23.06.2009 के पत्र, जो भापासं (तूतीकोरिन) में दिनांक 30.06.2009 को प्राप्त हुआ द्वारा अपना त्यागपत्र दिया। तथापि, पऊवि ने दिनांक 19.01.2010 की अंतर्विभागीय टिप्पणी के माध्यम से सक्षम प्राधिकारी द्वारा उनका त्यागपत्र न स्वीकारे जाने तथा अनुशासनिक कार्यवाही शीघ्र पूरा किए जाने करने के निर्णय को सूचित किया।

भापासं (तूतीकोरिन) के सुरक्षा अनुभाग में श्री राणे की सेवाओं की आवश्यकता थी किन्तु उनकी अप्राधिकृत अनुपस्थिति एवं दिनांक 10.05.2008 तक छुट्टी (चूँकि उन्होंने दिनांक 12.05.2008 को छुट्टी की समाप्ति पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया, वे दिनांक 10-11.05.2008 को छुट्टी के सफिक्स के रूप में प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं) के बाद भी अनुपस्थित रहने के कारण सुरक्षा अनुभाग को संयंत्र में सुरक्षा कार्यों का प्रबंधन करने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा था। इस प्रकार श्री राणे ने कार्य से अप्राधिकृत रूप से अनुपस्थित रह कर एवं उन्हें मंजूर की गई छुट्टी के बाद भी अनुपस्थित रह कर कर्तव्यपरायणता नहीं दिखाई है, जिसके लिए सरकार ने उनकी सेवाएं ली थी।

तथा जबकि अधोहस्ताक्षरी, अनुशासनिक प्राधिकारी के रूप में संतुष्ट हैं कि इस मामले में नियमों के अधीन विहित क्रियाविधि का पालन किया गया है तथा आरोपी कर्मचारी, श्री दिलीप सदाशिव राणे को उनके विरुद्ध लगाये गये आरोपों का प्रतिवाद करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया तथा अधोहस्ताक्षरी जाँच प्राधिकारी से सहमत हैं तथा श्री दिलीप सदाशिव राणे के विरुद्ध लगाये गये आरोपों को निःसंदेह सिद्ध हुआ मानते हैं।

तथा जबकि अधोहस्ताक्षरी, अनुशासनिक प्राधिकारी के रूप में इस उपसंहार पर पहुँचे कि श्री दिलीप सदाशिव राणे द्वारा किया गया कदाचार काफी गंभीर है तथा कड़े दण्ड की मांग करता है। वे अप्राधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे अपना अता-पता बताने में असमर्थ रहे, अपना पता नहीं बताया, तथा आज तक कार्यभार ग्रहण नहीं किया। उनके कदाचार को

देखते हुए अधोहस्ताक्षरी यह महसूस करते हैं कि न्याय तभी होगा जब उन पर सेवा से बरखास्तगी की दीर्घ शास्ति अधिरोपित की जाए।

अब अतः, अधोहस्ताक्षरी, अनुशासनिक प्राधिकारी के रूप में पऊवि के दिनांक 13.10.2005 के आदेश सं. 1/6(1)/2002-सर्त./7613 के साथ पठित केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 1965 के नियम 12(2)(बी) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से उक्त श्री दिलीप सदाशिव राणे, सहायक सुरक्षा अधिकारी (ए), भापासं (तूतीकोरिन) पर सेवा से बरखास्तगी की शास्ति एतद्द्वारा अधिरोपित करते हैं।

श्री दिलीप सदाशिव राणे को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि इस आदेश के विरुद्ध अपील परमाणु ऊर्जा विभाग, अणुशक्ति भवन, सीएसएम मार्ग, मुम्बई-400001 के पास की जा सकती है। यदि कोई अपील हो, तो उसे अपीलीय प्राधिकारी के पास इस आदेश की प्राप्ति के दिनांक से 45 दिनों के अंदर किया जाना चाहिए।

आदेश की प्राप्ति की पावती दें।

रजनीश प्रकाश  
मुख्य कार्यकारी, भापाबो एवं  
अनुशासनिक प्राधिकारी

श्री दिलीप सदाशिव राणे,  
C/o श्रीमती पी. वी. नेहते,  
16/बी, चैत्राबा कॉलोनी,  
महाबली, जलगांव-425001  
महाराष्ट्र

श्री दिलीप सदाशिव राणे,  
C/304, गीतांजली अपार्टमेंट्स, नोविनो,  
तरसली रोड, मकरपुरा,  
बड़ौदा-390009

श्री दिलीप सदाशिव राणे,  
23, मोतीनगर,  
तरसाली  
बड़ौदा-390009

परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय

हैदराबाद-500 016, दिनांक 26 जून 2012

सं. पखनि-1/4/2010-भर्ती--राष्ट्रपति महोदय निम्नलिखित व्यक्ति को वैज्ञानिक अधिकारी-सी के रूप में परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग में अगले आदेशों तक वेतन बैंड-3 रु. 15,600--39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 5,400/- में उनके नाम के सामने दर्शाए तिथि से स्थानापन्न के रूप में नियुक्त करते हैं :-

नाम	कार्यग्रहण की तिथि
श्री सीएच. स्वामी सागर	01.09.2011(पूर्वाह)

पी. मोहन बाबु  
मुख्य प्रशासनिक एवं लेखा अधिकारी



## महानिदेशक, नागर विमानन का कार्यालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 11 जुलाई 2012

सं. ए-12025/2/2009-स्थापना-2--संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों के आधार पर, राष्ट्रपति, श्री आसिफ अब्दुल कादर को नागर विमानन महानिदेशालय में पे बैंड-3, रुपये 15,600--39,100 + ग्रेड वेतन 5,400/- रुपये के वेतनमान में दिनांक 06 जुलाई 2012 (पूर्वाह्न) से तथा अगले आदेशों तक प्रचालन अधिकारी के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2. श्री आसिफ अब्दुल कादर अपना कार्य ग्रहण करने की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक परिविक्षाधीन रहेंगे।

जे. मिंज

उप निदेशक (प्रशासन)

कृते नागर विमानन महानिदेशक

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

कार्यालय कम्पनी रजिस्ट्रार

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

चण्डीगढ़, दिनांक 18 जुलाई 2012

सं. आरओसी/560(5)/2012--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :--

क्र. सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	003560	मैसर्स हिमाचल टैक्सटाइल एण्ड फैब्रीकेटिंग कंपनी प्राईवेट लिमिटेड
2.	003683	मैसर्स रामपैक्स कैमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
3.	003717	मैसर्स परवानो इन्टरप्राइजेस प्राईवेट लिमिटेड
4.	003724	मैसर्स कांगड़ा पेन्ट्स एण्ड केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
5.	003795	मैसर्स कुनिहर फाईनेंशियर्स प्राईवेट लिमिटेड
6.	003807	मैसर्स बुंदला टी एण्ड अलाइड इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
7.	003895	मैसर्स बब्बर केमिकल्स लिमिटेड
8.	004001	मैसर्स क्लैरीओन वाचिस एण्ड इलैक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
9.	004538	मैसर्स लखबीर फाईनेन्स ट्रेडर्स एण्ड एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
10.	004577	मैसर्स यूरिक उर्वशी इलैक्ट्रॉनिक प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
11.	004583	मैसर्स कोरा कागज प्र. लिमिटेड
12.	004590	मैसर्स मेहतपुर पेपर मिल्स लिमिटेड
13.	004611	मैसर्स मोहता कारबाइड एण्ड केमिकल्स लिमिटेड
14.	004613	मैसर्स हिमगिरि पोलीबांड्स प्राईवेट लिमिटेड
15.	004634	मैसर्स राओ बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
16.	004684	मैसर्स पंजाब वाच कंपनी प्राईवेट लिमिटेड
17.	004765	मैसर्स यूनी स्टाइल इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
18.	004921	मैसर्स हैल्थ क्राफ्ट प्राईवेट लिमिटेड
19.	005058	मैसर्स हिमाचल इन्वेस्टमेन्ट्स लिमिटेड
20.	005121	मैसर्स गगल कैरियर्स लिमिटेड
21.	005163	मैसर्स मशीन लिंकर्स प्राईवेट लिमिटेड
22.	005225	मैसर्स लिली इन्वेस्टमेन्ट्स लिमिटेड
23.	005231	मैसर्स आरती सेविंग एण्ड फाईनेंशियर्स प्राईवेट लिमिटेड
24.	005305	मैसर्स अनु डिट्स प्राईवेट लिमिटेड
25.	005329	मैसर्स मोल्टन ब्राऊन (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
26.	005395	मैसर्स हिमाचल सेविंग एण्ड इन्वेस्टमेन्ट्स लिमिटेड
27.	005415	मैसर्स बी. के. इन्टरप्राइजेस प्राईवेट लिमिटेड
28.	005547	मैसर्स माउन्टेनियर्स सेविंग कं. प्राईवेट लिमिटेड
29.	005553	मैसर्स शिवालिक सिंथेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड
30.	005603	मैसर्स सिडको लैबोरीस प्राईवेट लिमिटेड
31.	005892	मैसर्स हिम स्टार टूरिज्म प्राईवेट लिमिटेड
32.	005872	मैसर्स मिरज़ कंडक्टर्स प्राईवेट लिमिटेड
33.	005931	मैसर्स फोर्म टेक्नीक्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
34.	006083	मैसर्स हिमाचल कामर्शियल सेविंग (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
35.	006155	मैसर्स मारकांडा केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
36.	006154	मैसर्स भुयोरिया सीमेंट इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
37.	006175	मैसर्स शिवालिक पोलीमर्स प्राईवेट लिमिटेड
38.	006306	मैसर्स कैलाश फूड प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
39.	006318	मैसर्स हिमाचल इंडस्ट्रीयल इन्टरप्राइजेस प्राईवेट लिमिटेड
40.	006358	मैसर्स शिवालिक केमिकल्स एण्ड अलाइड इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
41.	006435	मैसर्स भाटिया टूरिस्ट होटल प्राईवेट लिमिटेड	73.	007343	मैसर्स दीपक सैकेस लिमिटेड
42.	006436	मैसर्स अशरफी लेमिनेशन इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड	74.	007345	मैसर्स रंगुनिस आर्ट फ्लावर्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
43.	006543	मैसर्स शक्ति पोलीलेम इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड	75.	007352	मैसर्स हिमाचल टेनरिस प्राईवेट लिमिटेड
44.	006566	मैसर्स जूम इलैक्ट्रॉनिक्स इण्डिया लिमिटेड	76.	007361	मैसर्स स्टैंडर्ड विडियो प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
45.	006602	मैसर्स पिकाडली होलीडे रिसोर्ट्स लिमिटेड	77.	007376	मैसर्स धनवृद्धि जनरल फार्मिनेन्स इंडिया लिमिटेड
46.	006650	मैसर्स हिमाचल इन्टर लिंक टेक्नोलॉजिस लिमिटेड	78.	007390	मैसर्स अन्नपूर्णा टूरिस्ट कम्पलैक्स प्राईवेट लिमिटेड
47.	006703	मैसर्स ईस्ट वेस्ट लीजिंग ऑफ फार्मिनेन्स लिमिटेड	79.	007389	मैसर्स ओरियन यार्न प्राईवेट लिमिटेड
48.	006740	मैसर्स शिवालिक केमआक्साईड्स प्राईवेट लिमिटेड	80.	007417	मैसर्स इण्डस्ट्रीयल चेन्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
49.	006844	मैसर्स कोसमोस इंजीनियरिंग एण्ड इलैक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	81.	007420	मैसर्स मेमोरी सॉफ्टवेयर लिमिटेड
50.	006852	मैसर्स नरेन फार्मिनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड	82.	007433	मैसर्स पालम इन्वेस्टमेन्ट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
51.	006859	मैसर्स डोनल स्पेशल फूड्स प्राईवेट लिमिटेड	83.	007501	मैसर्स शिवानी टूरिस्ट होटल प्राईवेट लिमिटेड
52.	006878	मैसर्स यूनाइटेड ट्वायज प्राईवेट लिमिटेड	84.	007543	मैसर्स हिमाचल मेडिकेयर प्राईवेट लिमिटेड
53.	006891	मैसर्स के. के. ब्रिक ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड	85.	007544	मैसर्स स्टैंडर्ड सिरामिक्स प्राईवेट लिमिटेड
54.	006892	मैसर्स हिमाचल इलैक्ट्रॉनिक डिवाइसिस प्राईवेट लिमिटेड	86.	007545	मैसर्स धनजल स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड
55.	006895	मैसर्स ओ. टी. सी. कोरपो लिमिटेड	87.	007592	मैसर्स ऊषा इलैक्ट्रॉनिक्स एक्सचेंजिस प्राईवेट लिमिटेड
56.	006913	मैसर्स जोधपुर कार्मशियल प्राईवेट लिमिटेड	88.	007610	मैसर्स हिमाचल ट्रेस प्राईवेट लिमिटेड
57.	006941	मैसर्स रिशभ सिरेमिक्स प्राईवेट लिमिटेड	89.	007625	मैसर्स शीनू स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड
58.	006977	मैसर्स बंसल इलैक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड	90.	007636	मैसर्स कांसल फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
59.	007025	मैसर्स हिमालियन वॉयर्स प्राईवेट लिमिटेड	91.	007682	मैसर्स कैपिटल ओक्सीजनस प्राईवेट लिमिटेड
60.	007040	मैसर्स अदविद ड्रग्स प्राईवेट लिमिटेड	92.	007703	मैसर्स एपीपीएल प्राईवेट लिमिटेड
61.	007048	मैसर्स ज्वालाजी फ्लोर मिल्स प्राईवेट लिमिटेड	93.	007712	मैसर्स वी. के. स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड
62.	007046	मैसर्स अरीशभ लैबोरेट्रीज प्राईवेट लिमिटेड	94.	007760	मैसर्स शिल्पा होटेलीयर्स प्राईवेट लिमिटेड
63.	007057	मैसर्स मनाली पैलेस प्राईवेट लिमिटेड	95.	007802	मैसर्स हीरा वूलन मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
64.	007063	मैसर्स प्राइम फ्यूल इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड	96.	007819	मैसर्स ईआईएल कम्प्यूटर प्राईवेट लिमिटेड
65.	007072	मैसर्स इयुक्लिप फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड	97.	007830	मैसर्स अनुराग वॉयर्स प्राईवेट लिमिटेड
66.	007075	मैसर्स मेफेयर ऑटोमोबाईल्स प्राईवेट लिमिटेड	98.	007840	मैसर्स बलिस केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
67.	007149	मैसर्स कपूर पैलेस प्राईवेट लिमिटेड	99.	007866	मैसर्स आकाशदीप डिपोजिट एण्ड कार्मशियल डेवलपमेन्ट (इण्डिया) लिमिटेड
68.	007171	मैसर्स पैरामाऊंट फोर्ज प्राईवेट लिमिटेड	100.	007906	मैसर्स संजय रिजोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
69.	007177	मैसर्स गर्ग एयर प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	101.	007981	मैसर्स हिमालियन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एण्ड लैंड डेवलपमेंट कं. प्राईवेट लिमिटेड
70.	007215	मैसर्स स्टैंडर्ड कंटेनियरस प्राईवेट लिमिटेड	102.	008139	मैसर्स जे. के. फार्मास्युटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
71.	007294	मैसर्स विकास फ्लोर मिल प्राईवेट लिमिटेड	103.	008233	मैसर्स केशा रिजोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
72.	007344	मैसर्स पी. के. ग्राफिक्स प्राईवेट लिमिटेड			

1	2	3
104.	008290	मैसर्स सिरमोर लीजिंग प्राईवेट लिमिटेड
105.	008312	मैसर्स लिओ रिमेडीज (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
106.	008377	मैसर्स वीआईई इन्वेस्टमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
107.	008391	मैसर्स बरमाना टायर रि-ट्रीडिंग प्राईवेट लिमिटेड
108.	008394	मैसर्स गंगोतरी रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
109.	008425	मैसर्स एल. डी. इन्वेस्टमेन्ट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
110.	008461	मैसर्स मितासु डाईस प्राईवेट लिमिटेड
111.	008472	मैसर्स यूनिक टाईम-टेक प्राईवेट लिमिटेड
112.	008480	मैसर्स एच.वी. डाईकोवोर्स प्राईवेट लिमिटेड
113.	008501	मैसर्स बिंदल त्रेहण वाईन्स प्राईवेट लिमिटेड
114.	008568	मैसर्स पार्वती फ्लोर मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
115.	008575	मैसर्स ग्लो इलैक्ट्रो स्टैमिंग प्राईवेट लिमिटेड
116.	008577	मैसर्स देवधरती फाईनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
117.	008603	मैसर्स मानव इन्सुलेटिड टेक्नीकल कोटिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
118.	008674	मैसर्स फरेजर फार्मास्युटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
119.	008816	मैसर्स चांदी कंटेनर्स प्राईवेट लिमिटेड
120.	008814	मैसर्स चांदी कम्प्यूफार्म्स प्राईवेट लिमिटेड
121.	008923	मैसर्स विक्की फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
122.	008978	मैसर्स के. एन. बी. सर्जीकल इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
123.	009028	मैसर्स हिमालय डिपोजिट्स एण्ड एडवांसेस प्राईवेट लिमिटेड
124.	009040	मैसर्स चाणक्य मेटल्स प्राईवेट लिमिटेड
125.	009051	मैसर्स सेफ्टी स्टील्स रोप्स प्राईवेट लिमिटेड
126.	009129	मैसर्स गद्दी फाईबर्स प्राईवेट लिमिटेड
127.	009151	मैसर्स नार्थ इण्डिया क्राइडिट्स एण्ड कामर्शियल डेवलपमेन्ट (इण्डिया) लिमिटेड
128.	009240	मैसर्स एएमबी फाईनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
129.	009250	मैसर्स श्री ठाकुर टैक्सटाईल्स मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
130.	009251	मैसर्स कमल सिल्क मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
131.	009255	मैसर्स सेनी टूल्स एण्ड फोर्जिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
132.	009329	मैसर्स यूनियवर्सल एग्रो केमिकल्स इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
133.	009336	मैसर्स धौलाधार हाऊसिंग एण्ड हायर परचेज लिमिटेड
134.	009346	मैसर्स राज डिपोजिट्स एण्ड एडवांसेस (इण्डिया) लिमिटेड
135.	009578	मैसर्स बिंडसर फाईनेशियर्स प्राईवेट लिमिटेड
136.	009673	मैसर्स मनचंदा रिजोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
137.	009685	मैसर्स मुकुल चिट्स प्राईवेट लिमिटेड
138.	009920	मैसर्स वालियस जैसमीन मोटल्स प्राईवेट लिमिटेड
139.	009951	मैसर्स अतिन केबल्स प्राईवेट लिमिटेड
140.	009981	मैसर्स भूतनाथ चिट फण्ड एण्ड लीजिंग लिमिटेड

राज सिंह  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
हिमाचल प्रदेश

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स शिवलाल मोतीलाल डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में  
हैदराबाद-500195, दिनांक 3 अगस्त 2011

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसारण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स शिवलाल मोतीलाल डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

शशी राज दारा  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
आंध्र प्रदेश

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स नाटुरोल बायोसाईंस लिमिटेड के विषय में  
हैदराबाद-500195, दिनांक 3 अगस्त 2011

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसारण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स नाटुरोल बायोसाईंस लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

शशी राज दारा  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
आंध्र प्रदेश

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स वेन्सर ट्रेड सेंटर प्राईवेट लिमिटेड के विषय में  
हैदराबाद-500195, दिनांक 3 अगस्त 2011

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसारण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स वेन्सर ट्रेड सेंटर

शशी राज दारा  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
आंध्र प्रदेश



शशी राज दारा  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
आंध्र प्रदेश

शशी राज दारा  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
आंध्र प्रदेश

शशी राज दारा  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
आंध्र प्रदेश

शशी राज दारा  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
आंध्र प्रदेश

शशी राज दारा  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
आंध्र प्रदेश

शशी राज दारा  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
आंध्र प्रदेश

शशी राज दारा  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
आंध्र प्रदेश

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसारण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स कनूर्ल लीजिंग

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के  
अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स मिनेरवा सॉफ्टवेक

शशी राज दारा  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
आंध्र प्रदेश

शशी राज दारा  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
आंध्र प्रदेश

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसारण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स प्रतिभा मल्टीमीडिया लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

शशी राज दारा  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
आंध्र प्रदेश

शशी राज दारा  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
आंध्र प्रदेश

हैदराबाद-500195, दिनांक 3 अगस्त 2011

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसारण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स मोरी इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

शशी राज दारा  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
आंध्र प्रदेश

हैदराबाद-500195, दिनांक 3 अगस्त 2011

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसारण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सौम्या डेयरी प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

शशी राज दारा  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
आंध्र प्रदेश

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स एन. एस. आईटी कन्सल्टिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

हैदराबाद-500195, दिनांक 3 अगस्त 2011

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसारण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स एन. एस. आईटी कन्सल्टिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

शशी राज दारा  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
आंध्र प्रदेश

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स महालक्ष्मी इग्स लिमिटेड लिमिटेड के विषय में

हैदराबाद-500195, दिनांक 3 अगस्त 2011

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसारण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स महालक्ष्मी ड्रग्स



5-176 GI/2012

शशी राज दारा  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
आंध्र प्रदेश

शशी राज दारा  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
आंध्र प्रदेश

शशी राज दारा  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
आंध्र प्रदेश

शशी राज दारा  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
आंध्र प्रदेश

शशी राज दारा  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
आंध्र प्रदेश

शशी राज दारा  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
आंध्र प्रदेश

शशी राज दारा  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
आंध्र प्रदेश

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसारण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स प्रेकास्ट डिजाईन



स्पीनर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

शशी राज दारा  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
आंध्र प्रदेश

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स डेक्कन लाईव स्टॉक एण्ड एग्री प्लानटेशन्स लिमिटेड के विषय में  
हैदराबाद-500195, दिनांक 3 अगस्त 2011

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसारण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स डेक्कन लाईव स्टॉक एण्ड एग्री प्लानटेशन्स लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

शशी राज दारा  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
आंध्र प्रदेश

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स मुसीका सोल्युशन प्राईवेट लिमिटेड के विषय में  
हैदराबाद-500195, दिनांक 3 अगस्त 2011

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसारण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स मुसीका सोल्युशन प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

शशी राज दारा  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
आंध्र प्रदेश

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स सिकन्दराबाद इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में  
हैदराबाद-500195, दिनांक 3 अगस्त 2011

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसारण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सिकन्दराबाद इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

शशी राज दारा  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
आंध्र प्रदेश

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स एनाईक सॉफ्टवेयर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

हैदराबाद-500195, दिनांक 3 अगस्त 2011

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसारण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स एनाईक सॉफ्टवेयर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

शशी राज दारा  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
आंध्र प्रदेश

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स ई-डेन सॉफ्टवेयर सॉल्युशन प्राईवेट लिमिटेड के विषय में  
हैदराबाद-500195, दिनांक 3 अगस्त 2011

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसारण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स ई-डेन सॉफ्टवेयर सॉल्युशन प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

शशी राज दारा  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
आंध्र प्रदेश

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

हैदराबाद-500195, दिनांक 18 जुलाई 2012

सं. आरओसी/560(5)/एफटीई-स्कीम/वीएसजे/क.स. 53/2012--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसारण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :-

क्र. सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	056200	मैसर्स श्री शुभम शेल्टर्स प्राईवेट लिमिटेड
2.	045500	मैसर्स अगामी सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
3.	055635	मैसर्स सनरिड्ज सॉफ्टवेयर सॉल्युशन्स प्राईवेट लिमिटेड
4.	016052	मैसर्स डवेलवेल इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
5.	055860	मैसर्स डी. एस. सी. सीमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
6.	060161	मैसर्स वी. टी. एल. प्रीमियर पैरोटेक्निक्स लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
7.	052340	मैसर्स सान्स मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड	31.	055512	मैसर्स वर्मा इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
8.	019789	मैसर्स बालाजी विराज कॉन एण्ड कम्पोनेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	32.	018322	मैसर्स रनित एग्रो प्राईवेट लिमिटेड
9.	060106	मैसर्स नवोदया इन्फ्राटेक इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड	33.	047994	मैसर्स काडिना सॉफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड
10.	031551	मैसर्स ए.वी.आर. होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड	34.	050263	मैसर्स ऑपटेक विजुअल इक्व्यूमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
11.	058168	मैसर्स प्रकृति सॉफ्टवेयर सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	35.	068216	मैसर्स जी.एन.के. पॉवर प्राईवेट लिमिटेड
12.	055464	मैसर्स व्याथ नेट्रोनिक्स प्राईवेट लिमिटेड	36.	067533	मैसर्स हिलिऑस पॉवर प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
13.	058600	मैसर्स क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेन्ट्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड	37.	042510	मैसर्स इंडिकॉस फार्मा प्राईवेट लिमिटेड
14.	054214	मैसर्स अभिज्योति एस्टेट्स एण्ड इन्फ्रा प्राईवेट लिमिटेड	38.	035929	मैसर्स श्री विनायका डिस्टीलरी एण्ड मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
15.	059908	मैसर्स मैफेयर हेन्सन होम्स प्राईवेट लिमिटेड	39.	064478	मैसर्स जोर्ड मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड
16.	066073	मैसर्स मॉरसन हास्पिटल्स लिमिटेड	40.	056773	मैसर्स ड्रीम स्क्वैड इन्फ्राटेक प्राईवेट लिमिटेड
17.	025455	मैसर्स ग्रान्ड विल्ली चिट फण्ड प्राईवेट लिमिटेड	41.	065878	मैसर्स लास्तिकी इन्वेस्टमेन्ट एडवाइज़री सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
18.	048993	मैसर्स मनिक सॉफ्ट सोल्युशन्स प्राईवेट लिमिटेड	42.	060341	मैसर्स बीएसएस श्री एनर्जी प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
19.	044719	मैसर्स नेड फार्मा प्राईवेट लिमिटेड	43.	066409	मैसर्स वाईकेएम श्रीनिवासा हेल्थ केयर प्राईवेट लिमिटेड
20.	061764	मैसर्स आर्का मोशन पिक्चर्स एण्ड स्टूडियोस प्राईवेट लिमिटेड	44.	059732	मैसर्स ईमार्केट इन्वोवेशन्स सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड
21.	060097	मैसर्स मेगा वैल्यू इन्शोरेन्स सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	45.	043225	मैसर्स लक्सई (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
22.	053681	मैसर्स अभिराम कन्सल्टन्स प्राईवेट लिमिटेड	46.	059519	मैसर्स रूबिकॉन टेक्सोल प्राईवेट लिमिटेड
23.	053697	मैसर्स छाडा सॉफ्टवेयर सोल्युशन्स प्राईवेट लिमिटेड	47.	062187	मैसर्स रिकॉन सॉफ्टवेयर सोल्युशन्स प्राईवेट लिमिटेड
24.	062368	मैसर्स वर्षा सिमेन्ट एण्ड पॉवर इण्डस्ट्रीस प्राईवेट लिमिटेड	48.	059648	मैसर्स आस्ट्रा टेक्सर्व प्राईवेट लिमिटेड
25.	057424	मैसर्स पिरिट्स लॉजिस्टिक सोल्युशन्स एण्ड सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	49.	061170	मैसर्स राहुल पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
26.	058878	मैसर्स यूआईबीआई इन्वोवेशन्स प्राईवेट लिमिटेड	50.	020967	मैसर्स परमेश्वरी कोल्ड स्टोरेज प्राईवेट लिमिटेड
27.	061048	मैसर्स के यू एज्यूकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड	51.	068691	मैसर्स एच के आर टेलवेस लिमिटेड
28.	066174	मैसर्स यूरोपियन फार्मूला बिल्डिंग एडहेसिव प्राईवेट लिमिटेड	52.	042331	मैसर्स रालफ हररीस मेडिकेयर प्राईवेट लिमिटेड
29.	054234	मैसर्स एटलस सॉफ्टवेयर सोल्युशन्स प्राईवेट लिमिटेड	53.	043369	मैसर्स वर्चुअल फंक्शन हॉल्स प्राईवेट लिमिटेड
30.	050811	मैसर्स यसस्वी टेक्नोलॉजिस प्राईवेट लिमिटेड			

वी. संतोषी जागिरदार  
सहायक कम्पनी पंजीयक  
आन्ध्र प्रदेश

## CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

New Delhi-110003, the 13th July 2012

No. DP/PERS. I/2012/0060/3/31/2004—Shri Ashok Kumar, IPS (TN : 1982) has relinquished charge of the office of Joint Director, Central Bureau of Investigation, Chennai with effect from the afternoon of 04.07.2012 on completion of approved tenure at Centre.

M. SACHDEV  
Admn. Officer (Pers.)

No. DP/PERS. I/2012/0061/3/46/2006—Shri Surender Paul, relinquished charge of the post of Senior Superintendent of Police, Central Bureau of Investigation with effect from the afternoon of 30.06.2012 on attaining the age of superannuation.

M. SACHDEV  
Admn. Officer (Pers.)

No. DP/PERS. I/2012/0062/3/158/2011—Shri Baljinder Singh Sra, Sr. PP, CBI, EOW, Kolkata relinquished the charge of the post of Senior Public Prosecutor, CBI with effect from 29.05.2012 on resignation.

M. SACHDEV  
Admn. Officer (Pers.)

No. DP/PERS. I/2012/0063/3/25/2005—Shri N. N. Komar, IPS (GJ : 1996) has relinquished charge of the office of Deputy Inspector General of Police, Central Bureau of Investigation, BS&FC, Bangalore with effect from the afternoon of 28.03.2012 on completion of approved tenure at Centre.

M. SACHDEV  
Admn. Officer (Pers.)

No. DP/PERS. I/2012/0064/3/8/2007—Shri Ganesh Verma relinquished charge of the post of Senior Superintendent of Police, Central Bureau of Investigation with effect from the afternoon of 30.06.2012 on attaining the age of superannuation.

M. SACHDEV  
Admn. Officer (Pers.)

The 16th July 2012

No. DP/PERS. I/2012/0065/3/32/2005—Shri Sumit Sharan, IPS (TN : 1997) has relinquished charge of the office of Deputy Inspector General of Police, Central Bureau of Investigation, ACB, New Delhi with effect from the afternoon of 03.07.2012 on completion of approved tenure at Centre.

M. SACHDEV  
Admn. Officer (Pers.)

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

## SARDAR VALLABHBHAI PATEL NATIONAL POLICE ACADEMY

Hyderabad-500052, the 19th July 2012

No. 15011/12/2012-Estt.—In pursuance of the Order No. 11/7041/2000-Pers./BSF/21123-52 dated 09.04.2012 of the Directorate General, BSF, New Delhi, Shri Tejpal Daber, Deputy Commandant, (IRLA-10077870) of 41 Bn., BSF is appointed as Addl. SP/Dy. Comdt. (General Central Service Group-A Gazetted, Non-Ministerial) in the SVP National Police Academy, Hyderabad in the Pay Band-3, Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 6,600/- plus usual allowances as admissible under the Central Government Rules from time to time on deputation basis with effect from the forenoon of 12th July, 2012 for a period of three years or until further orders, whichever is earlier, on usual terms and conditions of deputation.

2. He will have the option either to draw the pay in his parent scale of pay or the pay in the scale of pay of the deputation post in the Academy i.e. PB-3, Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 6,600/- plus allowances as admissible under the relevant rules. The option has to be exercised within one month of his joining the post and the option once exercised shall be final and binding.

V. N. RAI  
Director

## DIRECTORATE GENERAL, CRPF

New Delhi-110003, the 17th July 2012

No. P. VII-1/2012-Min.—Consequent on their promotion to the post of Assistant Commandant (Ministerial), the following Subedar Major (Ministerial) have taken over charge as Assistant Commandant (Ministerial) in the Offices and on the dates as mentioned against each :—

S. No.	Name	Office where charge taken over	Date of taking over charge
1	2	3	4
1.	Sh. Balam Singh Rawat, Assistant Commandant (Ministerial) (IRLA-9150)	O/O DIGP, Rapid Action Force/Central Reserve Police Force, New Delhi.	25.06.2012 (FN)
2.	Sh. Birendra Kumar, Assistant Commandant (Ministerial) (IRLA-9145)	O/O DIGP, Central Reserve Police Force, Kootah (Jammu).	11.06.2012 (FN)
3.	Sh. T. D. Paite, Assistant Commandant (Ministerial) (IRLA-9140)	O/O DIGP, Group Centre, Central Reserve Police Force, Kootah (Jammu).	25.06.2012 (FN)
4.	Sh. D. Karunamoorthy, Assistant Commandant (Ministerial) (IRLA-9148)	O/O Commandant, 05 Battalion, NDRF, Talegaon (Pune).	21.06.2012 (FN)

1	2	3	4
5.	Sh. Vijay Kumar Mishra, Assistant Commandant (Ministerial) (IRLA-9139)	O/O DIGP, Central Reserve Police Force, Kathgodam.	27.06.2012 (FN)
6.	Sh. Bakhat Singh Baghel, Assistant Commandant (Ministerial) (IRLA-9136)	O/O DIGP, Group Centre, Central Reserve Police Force, Raipur.	30.06.2012 (FN)

SATPAL KAPOOR  
DIGP (Organisation)

New Delhi-03, the 11th July 2012

No. O. II-3643/2011-Pers.—Reference : This Directorate notification of even No. dated 22.12.2011 vide which orders for appointment of Shri Sujit Chattopadhyay, ITS-92 for the post of Deputy Financial Adviser in CRPF have been issued.

2. Name of the officer mentioned in the notification under reference is hereby amended to read as under :—

FOR

Shri Sudit Chattopadhyay, ITS-92

READ

Shri Sujit Chattopadhyay, ITS-92

B. S. CHAUHAN  
DIG (Pers.)

#### INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

#### OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT), DELHI

New Delhi-110002, the 5th July 2012

No. Admn. O.O. No. 34—Consequent upon attaining the age of superannuation Sh. Satish Chand Jain, Senior Audit Officer of this office will retire from Government Service with effect from afternoon of 31.07.2012.

His date of birth is 02.07.1952 and date of entry in Government Service is 31.03.1973.

Sd/- ILLEGIBLE  
Dy. Accountant General (Admn.)

#### OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF COMMERCIAL AUDIT & EX-OFFICIO MEMBER AUDIT BOARD-II

Kolkata-700020, the 17th October 2011

No. 242/C/Admn./Recruit/Hindi/2011—In pursuance of this Office Order No. 132 dated 17.10.2011 Shri Rajeev Ranjan,

Junior Hindi Translator has assumed the charge to the post of Hindi Officer on promotion in the Pay Band-II of Rs. 9,300—34,800/- and Grade Pay of Rs. 4,800/- on 17.10.2011 (F.N.).

Sd/- ILLEGIBLE  
Principal Director of Commercial Audit  
& Ex-officio Member Audit Board-II

#### OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (GSSA)

#### ANDHRA PRADESH

Hyderabad-500004, the 17th July 2012

No. Admn. I/Prom./5-4/F. 60/2012-2013/66—Principal Accountant General is pleased to promote the following Assistant Audit Officers (Civil) to officiate as Audit Officer (Civil) in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay Rs. 5,400/- with effect from the dates mentioned against their names :—

S. No.	Name of the Officer	Office Order No./Date	Date of assumption of charge
	S/Sri/Ms.		
1.	Ch. Lakshmi Narasimha Rao	153/31.01.2012	01.02.2012
2.	L. Padmavathi	43/27.06.2012	28.06.2012
3.	M. Vijay Anand	43/27.06.2012	28.06.2012
4.	S. Krishna Mohan Rao	43/27.06.2012	27.06.2012
5.	M.S. Kumara Devan	43/27.06.2012	29.06.2012

The above promotions are ordered without prejudice to the claims of their seniors, if any, and subject to the result of the Writ Petitions, if any, pending in the Andhra Pradesh High Court/Supreme Court of India/Central Administrative Tribunal etc.

The officers at Sl. Nos. 01, 02 and 04 are not eligible for further fixation of pay as they were already allowed financial upgradation, under MACP Scheme, in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay Rs. 5,400/- as per DOPT OM No. 35034/3/2008-Estt. (D) dated 19.05.2010.

The officers at Sl. Nos. 03 & 05 should exercise option for fixation of pay within one month from the date of their promotion in terms of Govt. of India, O.M. No. F. No. 1/1/2008-IC dated 13.09.2008.

ANITHA BALAKRISHNA  
Sr. Dy. Accountant General (Admn.)

No. Admn. I/Prom./8-132/F. 59/2012-2013/67—Principal Accountant General (GSSA), Andhra Pradesh, Hyderabad is

pleased to declare the retirement of the following Sr. AOs with effect from the dates mentioned against their names :—

Sl. No.	Name	Date of Retirement
	S/Shri/Smt.	
1.	Ch. Sarabondu Raju	31.05.2012
2.	N. Madhusudhana	30.06.2012
3.	N. Macharla	30.06.2012
4.	Meriga Sastry	30.06.2012
5.	G. Kiran Kumari	30.06.2012

ANITHA BALAKRISHNA  
Sr. Dy. Accountant General (Admn.)

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL  
(A&E), ODISHA

Puri, the 16th March 2012

No. WM-47-2-DA/DAO-1571—Pursuant to this office O.O. No. WM-242, dt. 12.03.2012, the Principal Accountant General (A&E), Odisha, Bhubaneswar has been pleased to allow Sri Rabinarayan Sahoo, Divisional Accounts Officer Grade-I to officiate as Senior Divisional Accounts Officer (Group-B Gazetted) in the Pay Band-3 (Rs. 15,600—39,100/-) plus Grade Pay of Rs. 5,400/- with effect from 13.03.2012 F.N. without prejudice to the claims of his seniors until further orders.

No pay fixation benefit shall be allowed to the official as he has been granted 3rd financial upgradation to the same Grade Pay under MACP Scheme.

Sd/- ILLEGIBLE  
Dy. Accountant General  
(Works Accounts)

No. WM-47-2-DA/DAO-1573—Pursuant to this office O.O. No. WM-243, dt. 12.03.2012, the Principal Accountant General (A&E), Odisha, Bhubaneswar has been pleased to allow Sri Mahesh Chandra Mishra, Divisional Accounts Officer Grade-I to officiate as Senior Divisional Accounts Officer (Group-B Gazetted) in the Pay Band-3 (Rs. 15,600—39,100/-) plus Grade Pay of Rs. 5,400/- with effect from 01.02.2012 F.N. without prejudice to the claims of his seniors until further order.

No pay fixation benefit shall be allowed to the official as he has been granted 3rd financial upgradation to the same Grade Pay under MACP Scheme.

Sd/- ILLEGIBLE  
Dy. Accountant General  
(Works Accounts)

The 23rd May 2012

No. WM-47-2-DA/DAO-408—Pursuant to this office O.O. No. WM-7, dt. 12.04.2012, the Principal Accountant General (A&E), Odisha, Bhubaneswar has been pleased to allow Sri Arabinda Jyotishi, Divisional Accounts Officer Grade-I to officiate as Senior Divisional Accounts Officer (Group-B Gazetted) in the Pay Band-3 (Rs. 15,600—39,100/-) plus Grade Pay of Rs. 5,400/- with effect from 16.04.2012 F.N. without prejudice to the claims of his seniors until further order.

No pay fixation benefit shall be allowed to the official as he has been granted 3rd financial upgradation to the same Grade Pay under MACP Scheme.

Sd/- ILLEGIBLE  
Dy. Accountant General  
(Works Accounts)

No. WM-47-2-DA/DAO-410—Pursuant to this office O.O. No. WM-8, dt. 12.04.2012, the Principal Accountant General (A&E), Odisha, Bhubaneswar has been pleased to allow Sri P. R. S. P. Rao, Divisional Accounts Officer Grade-I to officiate as Senior Divisional Accounts Officer (Group-B Gazetted) in the Pay Band-3 (Rs. 15,600—39,100/-) plus Grade Pay of Rs. 5,400/- with effect from 12.04.2012 F.N. without prejudice to the claims of his seniors until further order.

No pay fixation benefit shall be allowed to the official as he has been granted 3rd financial upgradation to the same Grade Pay under MACP Scheme.

Sd/- ILLEGIBLE  
Dy. Accountant General  
(Works Accounts)

No. WM-47-2-DA/DAO-414—Pursuant to this office O.O. No. WM-10, dt. 18.04.2012, the Principal Accountant General (A&E), Odisha, Bhubaneswar has been pleased to allow Sri Gopal Chandra Mishra, Divisional Accounts Officer Grade-I to officiate as Senior Divisional Accounts Officer (Group-B Gazetted) in the Pay Band-3 (Rs. 15,600—39,100/-) plus Grade Pay of Rs. 5,400/- with effect from 19.04.2012 F.N. without prejudice to the claims of his seniors until further order.

No pay fixation benefit shall be allowed to the official as he has been granted 3rd financial upgradation to the same Grade Pay under MACP Scheme.

Sd/- ILLEGIBLE  
Dy. Accountant General  
(Works Accounts)

No. WM-47-2-DA/DAO-EO-424—Pursuant to this office O.O. No. WM-3, dt. 03.04.2012, the Principal Accountant General (A&E), Odisha, Bhubaneswar has been pleased to allow Sri Viashanve Chitta Sharma, Divisional Accounts Officer



Grade-II to officiate as Divisional Accounts Officer Gr. I (Group-B Gazetted) in the Pay Band-2 (Rs. 9,300—34,800/-) plus Grade Pay of Rs. 4,800/- with effect from 03.04.2012 F.N. without prejudice to the claims of his seniors until further order.

Sd/- ILLEGIBLE  
Dy. Accountant General  
(Works Accounts)

The 29th May 2012

#### CORRIGENDUM

No. WM-47-2-DA/DAO-493—The date of promotion of Sri Mahesh Chandra Mishra, Sr. DAO from the post of D.A.O-I mentioned as 01.02.2012 F.N. vide this office E.O. No. 17 dated 16.03.2012 and communicated vide Memo. No. WM-47-2-DA/DAO-1573 & 1574 (9), dated 16.03.2012 may be read as 13.03.2012 F.N. instead of 01.02.2012 F.N.

All other term & conditions of above E.O. shall however remain unchanged.

Sd/- ILLEGIBLE  
D.A.G. (W. A/cs)

#### MINISTRY OF DEFENCE

##### (ORDNANCE FACTORY BOARD)

Kolkata-700001, the 29th June 2012

No. 134/Confirmation/A/M—The President is pleased to confirm the following Medical Officer in the grade of Assistant Surgeon Grade-I/Junior Medical Officer (J.M.O.) in the pay scale of Rs. 650-1200/- in the Ordnance Factory Organization:—

Name	Date of confirmation
Dr. S.K. Varmani	01.10.1978

UPENDRA KUAMR  
DHS.

for Director General, Ordnance Factories

#### DEPARTMENT OF COMMERCE (SUPPLY DIVISION)

##### DIRECTORATE GENERAL OF SUPPLIES AND DISPOSALS

New Delhi-110001, the 23rd July 2012

No. A-19015/2/2012/A-II—The President is pleased to appoint Ms. Jaya Chaudhary as Assistant Director (QA) (Gr.I) (Engg.) in Pay Band PB-3, Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay Rs. 5,400/- in Junior Time Scale of Indian Inspection Service in Directorate General of Supplies & Disposals in an officiating capacity with effect from 02.07.2012 (F.N.) until further orders. Ms. Jaya Chaudhary will be governed by New Defined Contribution pension Scheme (DCPS), 2004.

K.A. SATHIA SULOCHALA  
Dy. Director (Admn.)  
for Directorate General of Supplies & Disposal

#### MINISTRY OF MINES

##### (INDIAN BUREAU OF MINES)

Nagpur, the 18th July 2012

No. A-19012/518/2011-Estt. A—In compliance to the Ministry of Statistics & Programme Implementation, New Delhi, Office Order No. 12015/01/2011-ISS dated 30.08.2011, Shri M.V. Sonkusale, has taken over the charge of Asstt. Mineral Economist (Stat) (on ad-hoc basis) in Indian Bureau of Mines w.e.f. 26/09/2011.(FN).

SANJAY KUMAR SINGH  
Asstt. Administrative Officer  
For Controller General

No. A-19012/377/2004-Estt. A—In compliance to the Ministry of Statistics & Programme Implementation, New Delhi, Office Order No. 12015/01/2012-ISS dated 30.05.2012 Shri S. L. Khadgi, has taken over the charge of Asstt. Mineral Economist (Stat) (on ad-hoc basis) in Indian Bureau of Mines w.e.f. 01.06.2012 (FN).

SANJAY KUMAR SINGH  
Asstt. Administrative Officer  
For Controller General

No. A-19012/356/2011-Estt. APP—Shri Vijay J. Bhat, Assistant Research Officer (OD), Indian Bureau of Mines, Nagpur has relinquished charge on the afternoon of 30.06.2012 on attaining the age of superannuation.

SANJAY KUMAR SINGH  
Asstt. Administrative Officer  
For Controller General

The 19th July 2012

No. A-19012/516/2011-Estt. A—In compliance to the Ministry of Statistics & Programme Implementation, New Delhi, Office Order No. 12015/01/2011-ISS dated 30.08.2011, Shri J. K. Bhagora, has taken over the charge of Asstt. Mineral Economist (Stat) (on ad-hoc basis) in Indian Bureau of Mines w.e.f. 11.10.2011 (FN).

SANJAY KUMAR SINGH  
Asstt. Administrative Officer  
For Controller General

#### MINISTRY OF CULTURE

##### (DEPARTMENT OF CULTURE)

##### ANTHROPOLOGICAL SURVEY OF INDIA

Kolkata-700016, the 19th July 2012

No. 4-363/2012/Estt.—The Director, Anthropological Survey of India, is pleased to appoint Shri Rabin Mukherjee, Office Superintendent attached to the Head Office, Kolkata of this Survey to the post of Junior Administrative Officer, Group-B (Gazetted) in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- (pre-revised) corresponding Pay Band PB-2 (9,300—34,800/-) with Grade Pay of Rs. 4,600/- (revised) at the Eastern

Regional Centre, Kolkata with effect from the forenoon of 19th June, 2012 until further orders.

D.N. PANDEY  
Head of Office

#### BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE

Mumbai-85, the 10th July 2012

No. PD/Misc/2012-R-IV/5981—President is pleased to appoint Shri Channagiri Lakshmana Setty Aruna Kumar as Technical Officer Grade 'D' in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- + Rs. 6,600/- Grade Pay in RMP, Mysore, Bhabha Atomic Research Centre in a temporary capacity with effect from the forenoon of 13th January, 2012 until further orders.

SHAILAJA PRAKASAM  
Dy. Establishment Officer

#### DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

Mumbai-400001, the 11th July 2012

No. 6(2606)/2012-Adm/126—The President is pleased to appoint Shri K.A. Prasad Sinha, IAS (PB-92) as Joint Secretary in the Department of Atomic Energy, Branch Secretariat, New Delhi in the Pay Band (PB-4, Rs. 37,400—67,000/- with Grade Pay Rs. 10,000/-) with effect from the forenoon of June 28, 2012 upto 15.03.2013 or until further orders, whichever is earlier.

V. GOVINDANKUTTY  
Under Secy.

#### HEAVY WATER BOARD

Mumbai-400094, the 30th August 2011

#### ORDER

No. HWB/IRS/4(18)(37)/666—WHEREAS Disciplinary Proceeding under Rule 14 of Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules 1965 were initiated against Shri Dilip Sadasiv Rane, Assistant Security Officer/A, Heavy Water Plant (Tuticorin) vide Memorandum No. HWB/IRS/4(18)(37)/208 dated 12.03.2009. The statement of imputation of misconduct or misbehavior leveled against him is as under:—

#### Article-I

“That the said Shri Dilip Sadasiv Rane, Assistant Security Officer/A, Heavy Water Plant (Tuticorin) while functioning in Heavy Water Plant (Baroda) was transferred to Heavy Water Plant (Tuticorin) in Public interest vide Office Order No. HWB/R/10(6)/B-76/2008/105 dated 05.02.2008 and on his relief from duty w.e.f. 06.02.2008 (AN), he was directed to report for duty to General Manager, Heavy Water Plant (Tuticorin). However Shri Rane did not join the duty on 22.02.2008 (FN), after availing normal joining time of 15 days entitled to him and overstayed his joining time without any prior permission or sanction of leave and reported at HWP(Tuticorin) only on 20.03.2008(FN)”.

#### Article-II

“That the said Shri Dilip Sadasiv Rane, while functioning as Assistant Security Officer/A in Heavy Water Plant (Tuticorin) applied for EL of 22 days from 18.04.2008 to 09.05.2008 (with prefix 16 & 17.04.2008 and Suffix 10 & 11.05.2008). His leave was sanctioned subject to eligibility. Shri Rane was supposed to join duty on 12.05.2008 after expiry of sanctioned leave. Shri Rane has not joined duty after expiry of the sanctioned leave and also did not intimate his whereabouts to his office. Thus Shri Rane remained absent from duty unauthorisedly and overstayed the sanctioned leave from 10.05.2008 to till date.”

By his aforesaid act, the said Shri Dilip Sadasiv Rane has shown lack of integrity, devotion to duty and exhibited conduct of unbecoming of a Government Servant thereby contravened the Rule 3(1)(i), 3(1)(ii) & 3(1)(iii) of Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964.

A Charge Sheet under Rule 14 of Central Civil Services (Classification, Control and appeal) Rules 1965 was issued vide Memorandum dated 12.03.2009. The said Shri Dilip Sadasiv Rane was directed to submit the representation, if any, within 10 days of receipt of Memorandum dated 12.03.2009.

AND WHEREAS the memorandum of charge sheet dated 12.03.2009 was sent to Shri Rane at his known addresses as per office records by Registered post A/D. The covers sent at his addresses were received back undelivered from the postal authority with the remarks “left”/“not claimed return to sender”. The charge sheet was also published in the local newspaper on 20.06.2009 as per guidelines prescribed.

AND WHEREAS as per guidelines on Departmental proceedings, ex-parte enquiry was held since Shri Rane did not attend the inquiry proceedings. The Inquiring Authority conducted the inquiry proceedings as per the rules and submitted the Inquiry Report vide letter No. HWPT/TSM/inq/2010/C-92 dated 07.12.2010. As per the Inquiry Report the Inquiry Authority has held that the two charges framed against Shri Rane have been proved beyond doubt.

AND WHEREAS a copy of the Inquiry Report was sent to all the 3 known addresses of Shri Dilip Sadasiv Rane, ASO(A), HWPT vide memorandum dated 04.05.2011 with a direction to Shri Rane to make his representation or submissions if any, in writing on the Inquiry Report, within 15 days of receipt of the Memorandum dated 04.05.2011. The Inquiry Report sent to all the 3 known addresses were returned undelivered with remarks (i) not claimed (ii) incomplete address and (iii) left respectively. Since the inquiry report has not been received by Shri Dilip Sadasiv Rane and his whereabouts are not known, the question of written representations/submissions on the inquiry report does not arise.

AND WHEREAS Shri Rane vide his letter dated 23.06.2009 submitted his resignation with a request to relieve him and to settle the arrears without specifying his address and the same was received in HWP (Tuticorin) on 30.06.2009.

AND WHEREAS the undersigned as Disciplinary Authority, have gone through the findings of the Inquiring Authority and after going through the case with the available records and documents/witnesses, record the case as follows:—

“As per the articles of charges, Shri Dilip Sadasiv Rane, Assistant Security Officer/A, Heavy Water Plant (Tuticorin) on his transfer in public interest to Heavy Water Plant (Tuticorin) vide Office Order dated 05.02.2008 and on his relief of duty w.e.f. 06.02.2008 (AN), was supposed to report for duty at HWP (Tuticorin) 22.02.2008 (FN), after availing normal joining time of 15 days entitled to him.

However instead of joining duty at HWP (Tuticorin) on 22.02.2008 as per his transfer order dated 05.02.2008, Shri Rane vide fax dated 14.02.2008 requested to grant him 18 days leave from 19.02.2008 to 04.03.2008 on ground of unavoidable domestic problems.

APO, HWP (Tuticorin) vide his telegram No. HWP/Estt./1440 dated 19.02.2008 informed Shri Rane that his request for leave with effect from 19.02.2008 to 04.03.2008 could not be granted as the same may be considered only after his joining in HWP (Tuticorin) and also advised him to join duty immediately on 19.02.2008.

In spite of Telegram dated 18/19.02.2008 from APO, HWP (Tuticorin) to Shri Rane, advising him to join duty immediately, he continued to remain absent unauthorisedly and thus overstayed the joining time and joined duty at HWP (Tuticorin) only on 20.03.2008(FN) contravening the provisions under Rule 3(1) of CCS (Conduct), Rules.

Further, Shri Dilip Sadasiv Rane while functioning as Assistant Security Officer/A, Heavy Water Plant (Tuticorin) applied for 22 days of EL from 18.04.2008 to 09.05.2008 with permission to prefix 16 & 17.04.2008 and suffix 10 & 11.05.2008 with leave address C/304, Gitanjali Apts, Novino, Tarsali Road, Makarpura, Baroda for bringing his family after his transfer from HWP (Baroda) and joining duty at HWP (Tuticorin) as per his application dated 26.03.2008 (after overstaying of joining time).

His leave was sanctioned subject to eligibility. After availing leave of 22 days from 18.04.2008 to 09.05.2008 with permission to prefix 16 & 17.04.2008 and suffix 10 & 11.05.2008 Shri Rane was supposed to join duty on 12.05.2008. Shri Rane instead of joining duty on 12.05.2008, vide his Telegram dated 06.05.2008 requested for extension of 45 days of EOL on the ground of his certain unavoidable personal/domestic problems.

However his Immediate Superior & Security Officer, HWP (Tuticorin)'s remark on the Telegram was that "the request is not recommended and action deemed fit may be initiated".

Accordingly Administrative Officer, HWP (Tuticorin) vide his telegram No. HWPT/Estt/D-16/3831 dated 24.05.2008 sent at Leave Address i.e. C/304 Gitanjali Apts, Novino, Tarsali Road, Makarpura, Baroda intimated Shri Rane that the extension of leave sought by him vide his Telegram is not

sanctioned and therefore advised him to report for duty immediately. A copy of the above Telegram was also sent to him at his Leave Address at Makarpura, Baroda by Registered Post with Acknowledgement Due. However the same was returned undelivered by the Postal Department with the remark "Left".

Another Telegram dated 11.06.2008 from AO, HWP (Tuticorin) was also sent to Shri Rane at his leave address at Makarpura and also at address C/o Mrs P V Nehete, 16/B, Chaitrabaw Colony, Mahabal, Jalgaon-425001 intimating him that extension of leave was not sanctioned and further advising him to report for duty immediately failing which disciplinary action will be initiated against him. A copy of the same was sent to him by Registered Post A/D at both the above addresses. However the Telegram sent at Makarpura and Jalgaon Addresses were returned undelivered by the Postal Department with remark "Left".

Shri Rane sent another Telegram dated 12.06.2008 addressed to Security Officer, HWP (Tuticorin) intimating that due to the compelling domestic crisis and problem he would not be able to attend his duty for another 3 months and requested extension of 90 days EOL stating the problems that he had lost his house and new address would be intimated as soon as he gets it. The telegram was booked at Vadodara.

AO, HWP (Tuticorin) sent Telegram dated 28.08.2008 to Shri Rane at his addresses at Makarpura and Jalgaon intimating that extension of leave as requested by him vide telegram dated 12.06.2008 was not sanctioned and further advising him to report for duty immediately failing which disciplinary action will be initiated against him. The copies of this Telegram were also sent to him by Registered Post at the above mentioned addresses. However the envelope containing Telegram dated 28.08.2008 sent to Shri Rane at his Jalgaon address was received undelivered by the Postal Department with the remark "Not claimed returned to sender". The envelope containing Telegram dated 28.08.2008 sent at Makarpura Address was also received undelivered with the postal remark "Left".

Shri Rane instead of joining his duty after expiry of leave as requested by him vide his Telegram dated 06.05.2008 and 12.06.2008 still continued to remain absent unauthorisedly and he sent another Telegram dated 29.09.2008 addressed to Administrative Officer, HWP (Tuticorin) intimating that due to his family and domestic problems he would not able to attend duty and sought extension of EOL of three months.

The Telegram dated 03.10.2008 from APO for AO, HWP (Tuticorin) was sent to Shri Rane at his addresses at Makarpura and Jalgaon intimating that extension of leave requested by him vide telegram dated 29.09.2008 was not sanctioned and therefore advising him to report for duty immediately, failing which disciplinary action will be initiated against him. A copy of the Telegram was also sent by Registered Post to Shri Rane at his above mentioned

addresses. Both the envelopes containing copies of the Telegram were received undelivered by the postal department of both the places with the postal remarks "Left" & "Not claimed returned to sender" respectively.

The Telegram Officer, Tuticorin vide his letter dated 13.10.2008 informed AO, HWP (Tuticorin) that Phonogram No. 5 dated 04.10.2008 handed in the Telegraph Office, Tuticorin addressed to Shri Dilip Sadasive Rane C/o Mrs P V Nehete, 16/B Saithara Paw Colony, Mahabali, Jalgaon could not be delivered stating that the address was insufficient and addressee is unknown.

Shri Rane again sent a telegram dated 20.12.2008 booked at Vadodara addressed to Administrative Officer, HWP (Tuticorin) and intimated that due to his domestic and personal problem he will not be able to attend his duty for another 90 days and thus requested to grant him 90 days of EOL.

Shri Rane again sent a telegram dated 23.03.2009 booked at Vadodara requesting for extension of 90 days of EOL on serious domestic problems. AO-III, HWP (Tuticorin) vide his Telegram dated 02.04.2009 informed that leave was not sanctioned and advised Shri Rane to report for duty immediately. But Shri Rane continued to remain absent from duty unauthorisedly.

Shri Rane, while proceeding on leave from 18.04.2008 to 09.05.2008, had given his leave address as C/304, Gitanjali Apts, Novino, Tarsali Road, Makarpura, Baroda. He was supposed to intimate his new address as per his telegram dated 12.06.2008. However, till date he has not intimated his new address to the office. In the absence of his new address, the official correspondences made with him by the office advising him to report for duty were returned undelivered by the postal authorities to HWP (Tuticorin). Thus it is evident that Shri Rane has been purposely not disclosing his new address so as to avoid receiving official communications from the office during his unauthorised absence from duty.

Shri Rane vide his letter dated 23.06.2009 received in HWP (Tuticorin) on 30.06.2009 submitted his resignation. However, DAE vide their ID Note dated 19.01.2010 conveyed the Competent Authority's decision not to accept his resignation and to expedite completion of disciplinary proceedings.

Shri Rane's services in security section in HWP (Tuticorin) were required but due to his unauthorized absence and over stay of leave from 10.05.2008 (since he has not joined his duty on 12.05.2008 after expiry of leave, he is not entitled for suffix to leave on 10-11.05.2008), Security Section was facing difficulties in managing the Security affairs in the plant. Thus Shri Rane while remaining unauthorisedly absent from duty and overstaying the leave sanctioned to him did not show devotion to duty for which his services were engaged by the Government.

And Whereas the undersigned, as the Disciplinary Authority is satisfied that the procedure prescribed under the rules has been followed in this case and also the charged official, Shri Dilip Sadasiv Rane was given reasonable opportunity to defend his case against the charges leveled against him and the undersigned agree with the Inquiry Authority and holds the charges leveled against the said Shri Dilip Sadasiv Rane as proved beyond doubt.

And Whereas the undersigned as Disciplinary Authority, have come to the conclusion that the misconduct committed by Shri Dilip Sadasiv Rane is grave enough and warrants severe punishment. He had remained unauthorisedly absent, failed to intimate his whereabouts, did not disclose his address and has not reported for duty till date. In view of his misconduct, the undersigned feels that the ends of the justice would be met if major penalty of dismissal from service is imposed on him.

Now Therefore, the undersigned, as the Disciplinary Authority, in exercise of the powers conferred under Rule 12(2) (b) of CCS (CCA) Rules 1965 read with DAE Order No. 1/6(1)/2002-Vig/7613 dated 13.10.2005 hereby imposes the penalty of dismissal from service on the said Shri Dilip Sadasiv Rane, Assistant Security Officer (A), HWP (Tuticorin) with immediate effect.

Shri Dilip Sadasiv Rane is hereby informed that an Appeal against the Order lies with the Secretary, Department of Atomic Energy, Anushaktibhavan, CSM Marg, Mumbai-400001. The Appeal, if any, shall be preferred to the Appellate Authority within 45 days from the date of receipt of this Order.

The receipt of the Order should be acknowledged.

RAJNISH PRAKASH  
Chief Executive, HWB &  
Disciplinary Authority

Shri Dilip Sadasiv Rane,  
C/o Mrs P V Nehete,  
16/B, Chaitrabaw Colony,  
Mahabali, Jalgaon-425001.  
Maharashtra.

Shri Dilip Sadasiv Rane,  
C/304, Gitanjali Apts, Novino,  
Tarsalai Road, Makarpura,  
Baroda-390010.

Shri Dilip Sadasiv Rane,  
23, Motinagar,  
Tarsalai,  
Baroda-390009.

**ATOMIC MINERALS DIRECTORATE FOR  
EXPLORATION & RESEARCH**

Hyderabad-500016, the 26th June 2012

No. AMD-1/4/2010-Rectt./1094—The President is pleased to appoint the undermentioned individual as SCIENTIFIC OFFICER-C in Atomic Minerals Directorate for Exploration & Research, Department of Atomic Energy, in a temporary capacity in the Pay Band-3, Rs. 15,600–39,100/- + Rs. 5,400/- Grade Pay with effect from the date mentioned below until further orders:—

Name	Date of Assumption of charge
Shri Ch. Swamy Sagar	01.09.2011 (F.N.)

P. MOHAN BABU  
Chief Admn. & Accounts Officer

**OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF CIVIL  
AVIATION**

New Delhi-110003, the 11th July 2012

No. A-12025/2/2009-E.II.—On the basis of the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Shri Asif Abdul Kader to the Post of Operations Officer in the Civil Aviation Department, in the scale of pay of PB-3 of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 5,400/- with effect from 6th July, 2012 (Forenoon) and until further orders.

2. Shri Asif Abdul Kader will be on probation for a period of 02 (two) years from 06th July, 2012 (Forenoon).

J. MINZ  
Dy. Director of Admn.

**MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS  
OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES**

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
the following Companies

Chandigarh-0172-2639415, the 18th July 2012

No. RoC/560(5)FTE/2012—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following Companies have this day been struck off from the Register and the said Companies are dissolved :—

Sl. No.	Company No.	Name of the Company
1	2	3
1.	003560	M/s. Himachal Textile and Fabricating Co. Private Limited
2.	003683	M/s. Rampex Chemicals Private Limited

1	2	3
3.	003717	M/s. Parwanoo Enterprises Private Limited
4.	003724	M/s. Kangra Paints and Chemicals Private Limited
5.	003795	M/s. Kunihar Financiers Private Limited
6.	003807	M/s. Bundla Tea and Allied Industries Private Limited
7.	003895	M/s. Bubber Chemicals Limited
8.	004001	M/s. Clarion Watches and Electronics Private Limited
9.	004538	M/s. Lakhbir Finance Traders and Exporters Private Limited
10.	004577	M/s. Urik Urvashi Electronic Private Limited
11.	004583	M/s. Kora Kagaz Private Limited
12.	004590	M/s. Mehatpur Paper Mills Limited
13.	004611	M/s. Mohta Carbide and Chemicals Limited
14.	004613	M/s. Himgiri Polybonds Private Limited
15.	004634	M/s. Rao Builders Private Limited
16.	004684	M/s Punjab Watch Co. Private Limited
17.	004765	M/s. Uni Style India Private Limited
18.	004921	M/s. Health Craft Private Limited
19.	005058	M/s. Himachal Investments Limited
20.	005121	M/s. Gagal Carriers Limited
21.	005163	M/s. Machine Linkers Private Limited
22.	005225	M/s. Lilly Investments Limited
23.	005231	M/s. Aarti Saving and Financiers Private Limited
24.	005305	M/s. Anu Dets Private Limited
25.	005329	M/s. Molton-Brown (India) Private Limited
26.	005395	M/s. Himachal Savings and Investments Limited
27.	005415	M/s. V.K. Enterprises Private Limited
28.	005547	M/s. Mountaineers Savings Co. Private Limited
29.	005553	M/s. Shiwalak Synthetics Private Limited
30.	005603	M/s. Sidco Laboratories Private Limited
31.	005892	M/s. Him Star Tourism Private Limited

1	2	3
32.	005872	M/s. Meeraj Conductors Private Limited
33.	005931	M/s. Form Technics India Private Limited
34.	006083	M/s. Himachal Commercial Savings (India) Private Limited
35.	006155	M/s. Markanda Chemicals Private Limited
36.	006154	M/s. Bhutoria Cement Industries Private Limited
37.	006175	M/s. Shivalik Polymers Private Limited
38.	006306	M/s. Kailash Food Products Private Limited
39.	006318	M/s. Himachal Industrial Enterprises Private Limited
40.	006358	M/s. Shivalik Chemicals and Allied Industries Private Limited
41.	006435	M/s. Bhatia Tourist Hotel Private Limited
42.	006436	M/s. Ashrafi Lamination Industries Private Limited
43.	006543	M/s. Shakti Polylam Industries Private Limited
44.	006566	M/s. Zoom Electronics India Limited
45.	006602	M/s. Piccadily Holiday Resorts Limited
46.	006650	M/s. Himachal Inter Link Technologies Limited
47.	006703	M/s. East West Leasing of Finance Limited
48.	006740	M/s. Shivalik Chemoxides Private Limited
49.	006844	M/s. Cosmos Engineering and Electronics Limited
50.	006852	M/s. Naren Finance and Investment Private Limited
51.	006859	M/s. Donell Special Foods Private Limited
52.	006878	M/s. United Toys Private Limited
53.	006891	M/s. KK Brick Traders Private Limited
54.	006892	M/s. Himachal Electronic Devices Private Limited
55.	006895	M/s. OTC Kogyo Limited
56.	006913	M/s. Jodhpur Commercial Private Limited
57.	006941	M/s. Rishabh Ceramics Private Limited
58.	006977	M/s. Bansal Electronics Private Limited
59.	007025	M/s. Himalyan Wires Private Limited

1	2	3
60.	007040	M/s. Advid Drugs Private Limited
61.	007048	M/s. Jawalaji Flour Mills Private Limited
62.	007046	M/s. Arishab Laboratories Private Limited
63.	007057	M/s. Manali Place Private Limited
64.	007063	M/s. Prime Fuel Industries Private Limited
65.	007072	M/s. Eucalip Farms Private Limited
66.	007075	M/s. Mayfair Automobiles Private Limited
67.	007149	M/s. Kapoor Palace Private Limited
68.	007171	M/s. Paramount Forge Private Limited
69.	007177	M/s. Garg Air Products Private Limited
70.	007215	M/s. Standard Containers Private Limited
71.	007294	M/s. Vikas Flour Mill Private Limited
72.	007344	M/s. P.K. Graphics Private Limited
73.	007343	M/s. Deepak Sacks Limited
74.	007345	M/s. Rangoonis Art Flowers (India) Private Limited
75.	007352	M/s. Himachal Tanneries Private Limited
76.	007361	M/s. Standard Video Products Private Limited
77.	007376	M/s. Dhanvaridhi General Finance India Limited
78.	007390	M/s. Anapoorna Tourist Complex Private Limited
79.	007389	M/s. Orion Yarn Private Limited
80.	007417	M/s. Industrial Chains India Private Limited
81.	007420	M/s. Memory Software Limited
82.	007433	M/s. Palam Investment Company Private Limited
83.	007501	M/s. Shivani Tourist Hotel Private Limited
84.	007543	M/s. Himachal Medicare Private Limited
85.	007544	M/s. Standard Ceramics Private Limited
86.	007545	M/s. Dhanjal Steels Private Limited
87.	007592	M/s. Usha H.P. Electronics Exchanges Private Limited
88.	007610	M/s. Himachal Trays Private Limited
89.	007625	M/s. Sheenu Steels Private Limited
90.	007636	M/s. Kansal Foods Private Limited

1	2	3
91.	007682	M/s. Capital Oxygens Private Limited
92.	007703	M/s. Appl Private Limited
93.	007712	M/s. V.K. Steels Private Limited
94.	007760	M/s. Shilza Hoteliers Private Limited
95.	007802	M/s. Heera Woollen Mills Private Limited
96.	007819	M/s. Eil Computer Private Limited
97.	007830	M/s. Anurag Wires Private Limited
98.	007840	M/s. Bliss Chemicals Private Limited
99.	007866	M/s. Akashdeep Deposit and Commercial Development (India) Limited
100.	007906	M/s. Sanjay Resorts Private Limited
101.	007981	M/s. Himalayan Agricultural Products and Land Development Co. Private Limited
102.	008139	M/s. J.K. Pharmaceuticals Private Limited
103.	008233	M/s. Keisha Resorts Private Limited
104.	008290	M/s. Sirmour Leasing Private Limited
105.	008312	M/s. Leo Remedies (India) Private Limited
106.	008377	M/s. Vie Investment Private Limited
107.	008391	M/s. Barmana Tyre Retreading Private Limited
108.	008394	M/s. Gangotri Resorts Private Limited
109.	008425	M/s. L.D. Investment Company Private Limited
110.	008461	M/s. Mitasu Dies Private Limited
111.	008472	M/s. Unique Time-Tech Private Limited
112.	008480	M/s. H.V. Dycovors Private Limited
113.	008501	M/s. Bindal Trehan Wines Private Limited
114.	008568	M/s. Parwati Flour Mills Private Limited
115.	008575	M/s. Glow Electro Stampings Private Limited
116.	008577	M/s. Devdharti Finance and Investment Private Limited
117.	008603	M/s. Manav Insulated Technical Coatings Private Limited
118.	008674	M/s. Frazer Pharmaceuticals Private Limited
119.	008816	M/s. Chandi Containers Private Limited
120.	008814	M/s. Chandi Compuforms Private Limited

1	2	3
121.	008923	M/s. Vicky Foods Private Limited
122.	008978	M/s. K.N.B. Surgical Industries Private Limited
123.	009028	M/s. Himalya Deposits and Advances Private Limited
124.	009040	M/s. Chankya Metals Private Limited
125.	009051	M/s. Safety Steel Ropes Private Limited
126.	009129	M/s. Gaddi Fibres Private Limited
127.	009151	M/s. North India Credits and Commercial Developments (India) Limited
128.	009240	M/s. Amb Finance and Investment Private Limited
129.	009250	M/s. Shree Thakur Textile Mills Private Limited
130.	009251	M/s. Kamal Silk Mills Private Limited
131.	009255	M/s. Saini Tools and Forgings Private Limited
132.	009329	M/s. Universal Agro Chemical Industries Private Limited
133.	009336	M/s. Dhauladhar Housing and Hire Purchase Limited
134.	009346	M/s. Raj Deposits and Advances India Limited
135.	009578	M/s. Windsor Finaciers Private Limited
136.	009673	M/s. Manchanda Resorts Private Limited
137.	009685	M/s. Mukul Chits Private Limited
138.	009920	M/s. Walias Jasmine Motels Private Limited
139.	009951	M/s. Atin Cables Private Limited
140.	009981	M/s. Bhoot Nath Chit Fund and Leasing Limited

**RAJ SINGH**  
Registrar of Companies-cum-Official  
Liquidator  
Himachal Pradesh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Shival Motilal Distributors Private Limited

Hyderabad-500195, the 3rd August 2011

Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of  
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of

M/s. Shival Motilal Distributors Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHASHI RAJ DARA  
Dy. Registrar of Companies  
Andhra Pradesh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Naturol Biosciences Limited

Hyderabad-500195, the 3rd August 2011

Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Naturol Biosciences Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHASHI RAJ DARA  
Dy. Registrar of Companies  
Andhra Pradesh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Vensar Trade Centre Private Limited

Hyderabad-500195, the 3rd August 2011

Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Vensar Trade Centre Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHASHI RAJ DARA  
Dy. Registrar of Companies  
Andhra Pradesh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Vista IT Services Private Limited

Hyderabad-500195, the 3rd August 2011

Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Vista IT Services Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHASHI RAJ DARA  
Dy. Registrar of Companies  
Andhra Pradesh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Jubilee Exim Private Limited

Hyderabad-500195, the 3rd August 2011

Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of

M/s. Jubilee Exim Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHASHI RAJ DARA  
Dy. Registrar of Companies  
Andhra Pradesh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Aicra Info Mates Private Limited

Hyderabad-500195, the 3rd August 2011

Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Aicra Info Mates Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHASHI RAJ DARA  
Dy. Registrar of Companies  
Andhra Pradesh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Surya Prakash Home Shopping Private Limited

Hyderabad-500195, the 3rd August 2011

Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Surya Prakash Home Shopping Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHASHI RAJ DARA  
Dy. Registrar of Companies  
Andhra Pradesh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Promenos Technologies Private Limited

Hyderabad-500195, the 3rd August 2011

Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Promenos Technologies Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHASHI RAJ DARA  
Dy. Registrar of Companies  
Andhra Pradesh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Masquati Dairy Products Private Limited

Hyderabad-500195, the 3rd August 2011

Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of



M/s. Masquati Dairy Products Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHASHI RAJ DARA  
Dy. Registrar of Companies  
Andhra Pradesh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Vimal Vikas Integrated Services (India) Private  
Limited

Hyderabad-500195, the 3rd August 2011

Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Vimal Vikas Integrated Services (India) Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHASHI RAJ DARA  
Dy. Registrar of Companies  
Andhra Pradesh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Viswajit Castings And Fabrications Works Private  
Limited

Hyderabad-500195, the 3rd August 2011

Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Viswajit Castings And Fabrications Works Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHASHI RAJ DARA  
Dy. Registrar of Companies  
Andhra Pradesh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Pragathi Agri-Inputs Private Limited

Hyderabad-500195, the 3rd August 2011

Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Pragathi Agri-Inputs Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHASHI RAJ DARA  
Dy. Registrar of Companies  
Andhra Pradesh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Rangasai Agro Products Private Limited

Hyderabad-500195, the 3rd August 2011

Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of

M/s. Rangasai Agro Products Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHASHI RAJ DARA  
Dy. Registrar of Companies  
Andhra Pradesh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. MKG Info Services Private Limited

Hyderabad-500195, the 3rd August 2011

Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. MKG Info Services Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHASHI RAJ DARA  
Dy. Registrar of Companies  
Andhra Pradesh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. P. V. Power Spinners Private Limited

Hyderabad-500195, the 3rd August 2011

Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. P. V. Power Spinners Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHASHI RAJ DARA  
Dy. Registrar of Companies  
Andhra Pradesh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Machines and Machine Tools Private Limited

Hyderabad-500195, the 3rd August 2011

Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Machines and Machine Tools Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHASHI RAJ DARA  
Dy. Registrar of Companies  
Andhra Pradesh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Burle Securities Private Limited

Hyderabad-500195, the 3rd August 2011

Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of

M/s. Burle Securities Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHASHI RAJ DARA  
Dy. Registrar of Companies  
Andhra Pradesh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Wintek Granites Private Limited

Hyderabad-500195, the 3rd August 2011

Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Wintek Granites Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHASHI RAJ DARA  
Dy. Registrar of Companies  
Andhra Pradesh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Rabadi Chit Fund and Finance Private Limited

Hyderabad-500195, the 3rd August 2011

Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Rabadi Chit Fund and Finance Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHASHI RAJ DARA  
Dy. Registrar of Companies  
Andhra Pradesh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Haillam Chit Funds Private Limited

Hyderabad-500195, the 3rd August 2011

Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Haillam Chit Funds Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHASHI RAJ DARA  
Dy. Registrar of Companies  
Andhra Pradesh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Kurnool Leasing and Investment Company Limited

Hyderabad-500195, the 3rd August 2011

Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Kurnool Leasing and Investment Private Limited has

this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHASHI RAJ DARA  
Dy. Registrar of Companies  
Andhra Pradesh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sree Jeas Realtos Private Limited

Hyderabad-500195, the 3rd August 2011

Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sree Jeas Realtos Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHASHI RAJ DARA  
Dy. Registrar of Companies  
Andhra Pradesh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sabri Computer Education Private Limited

Hyderabad-500195, the 3rd August 2011

Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sabri Computer Education Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHASHI RAJ DARA  
Dy. Registrar of Companies  
Andhra Pradesh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. East Coast Sea Food Exports Private Limited

Hyderabad-500195, the 3rd August 2011

Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. East Coast Sea Food Exports Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHASHI RAJ DARA  
Dy. Registrar of Companies  
Andhra Pradesh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Bharadwaj Engineering Solutions Private Limited

Hyderabad-500195, the 3rd August 2011

Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of

M/s. Bharadwaj Engineering Solutions Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHASHI RAJ DARA  
Dy. Registrar of Companies  
Andhra Pradesh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Hy-Plast Engineers Private Limited

Hyderabad-500195, the 3rd August 2011

Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Hy-Plast Engineers Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHASHI RAJ DARA  
Dy. Registrar of Companies  
Andhra Pradesh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Nukalapati Real Estates Private Limited

Hyderabad-500195, the 3rd August 2011

Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Nukalapati Real Estates Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHASHI RAJ DARA  
Dy. Registrar of Companies  
Andhra Pradesh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Minerva Softech Private Limited

Hyderabad-500195, the 3rd August 2011

Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Minerva Softech Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHASHI RAJ DARA  
Dy. Registrar of Companies  
Andhra Pradesh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Foto Link India Private Limited

Hyderabad-500195, the 3rd August 2011

Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of

M/s. Foto Link India Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHASHI RAJ DARA  
Dy. Registrar of Companies  
Andhra Pradesh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Paramount Colonisers Private Limited

Hyderabad-500195, the 3rd August 2011

Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Paramount Colonisers Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHASHI RAJ DARA  
Dy. Registrar of Companies  
Andhra Pradesh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Charminar Service Private Limited

Hyderabad-500195, the 3rd August 2011

Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Charminar Service Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHASHI RAJ DARA  
Dy. Registrar of Companies  
Andhra Pradesh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Invotech Constructions and Consultants Private Limited

Hyderabad-500195, the 3rd August 2011

Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Invotech Constructions and Consultants Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHASHI RAJ DARA  
Dy. Registrar of Companies  
Andhra Pradesh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Vanshee Krishna Cemens Private Limited

Hyderabad-500195, the 3rd August 2011

Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of

M/s. Vanshee Krishna Cemens Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHASHI RAJ DARA  
Dy. Registrar of Companies  
Andhra Pradesh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sowmya Dairy Products Private Limited

Hyderabad-500195, the 3rd August 2011

Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sowmya Dairy Products Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHASHI RAJ DARA  
Dy. Registrar of Companies  
Andhra Pradesh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Mahalaxmi Drugs Limited

Hyderabad-500195, the 3rd August 2011

Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Mahalaxmi Drugs Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHASHI RAJ DARA  
Dy. Registrar of Companies  
Andhra Pradesh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Pratibha Multimedia Limited

Hyderabad-500195, the 3rd August 2011

Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Pratibha Multimedia Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHASHI RAJ DARA  
Dy. Registrar of Companies  
Andhra Pradesh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Mori India Private Limited

Hyderabad-500195, the 3rd August 2011

Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of

M/s. Mori India Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHASHI RAJ DARA  
Dy. Registrar of Companies  
Andhra Pradesh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. N. S. IT Consulting Private Limited

Hyderabad-500195, the 3rd August 2011

Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. N. S. IT Consulting Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHASHI RAJ DARA  
Dy. Registrar of Companies  
Andhra Pradesh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Swarnasree Finance and Leasing Private Limited

Hyderabad-500195, the 3rd August 2011

Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Swarnasree Finance and Leasing Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHASHI RAJ DARA  
Dy. Registrar of Companies  
Andhra Pradesh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Ahara Engineers Private Limited

Hyderabad-500195, the 3rd August 2011

Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Ahara Engineers Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHASHI RAJ DARA  
Dy. Registrar of Companies  
Andhra Pradesh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Juggernaut Motors Private Limited

Hyderabad-500195, the 3rd August 2011

Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of

M/s. Juggernaut Motors Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHASHI RAJ DARA  
Dy. Registrar of Companies  
Andhra Pradesh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Monita Finance and Investments Private Limited

Hyderabad-500195, the 3rd August 2011

Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Monita Finance and Investments Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHASHI RAJ DARA  
Dy. Registrar of Companies  
Andhra Pradesh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Kanakamahalakshmi Travels Private Limited

Hyderabad-500195, the 3rd August 2011

Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Kanakamahalakshmi Travels Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHASHI RAJ DARA  
Dy. Registrar of Companies  
Andhra Pradesh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. M. M. Cyber Technologies Private Limited

Hyderabad-500195, the 3rd August 2011

Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. M. M. Cyber Technologies Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHASHI RAJ DARA  
Dy. Registrar of Companies  
Andhra Pradesh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sri Chandrasekhara Minerals Private Limited

Hyderabad-500195, the 3rd August 2011

Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of

M/s. M. M. Cyber Technologies Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHASHI RAJ DARA  
Dy. Registrar of Companies  
Andhra Pradesh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Karumanchi Chit Fund Private Limited

Hyderabad-500195, the 3rd August 2011

Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Karumanchi Chit Fund Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHASHI RAJ DARA  
Dy. Registrar of Companies  
Andhra Pradesh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Deccan Finlease Services India Limited

Hyderabad-500195, the 3rd August 2011

Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Deccan Finlease Services India Limited Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHASHI RAJ DARA  
Dy. Registrar of Companies  
Andhra Pradesh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Evergeen Aqua Minerals Private Limited

Hyderabad-500195, the 3rd August 2011

Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Evergeen Aqua Minerals Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHASHI RAJ DARA  
Dy. Registrar of Companies  
Andhra Pradesh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. CDC Polyols Private Limited

Hyderabad-500195, the 3rd August 2011

Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of

M/s. CDC Polyols Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHASHI RAJ DARA  
Dy. Registrar of Companies  
Andhra Pradesh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Integrated Financial and Investment Services  
Limited

Hyderabad-500195, the 3rd August 2011

Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Integrated Financial and Investment Services Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHASHI RAJ DARA  
Dy. Registrar of Companies  
Andhra Pradesh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Vama Polymers Private Limited

Hyderabad-500195, the 3rd August 2011

Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Vama Polymers Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHASHI RAJ DARA  
Dy. Registrar of Companies  
Andhra Pradesh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Caffinhal Organic and Pharmaceuticals Limited

Hyderabad-500195, the 3rd August 2011

Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Caffinhal Organic and Pharmaceuticals Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHASHI RAJ DARA  
Dy. Registrar of Companies  
Andhra Pradesh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Precast Design and Engineering Services (India)  
Private Limited

Hyderabad-500195, the 3rd August 2011

Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of

M/s. Precast Design and Engineering Services (India) Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHASHI RAJ DARA  
Dy. Registrar of Companies  
Andhra Pradesh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. E. R. P. School Private Limited

Hyderabad-500195, the 3rd August 2011

Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. E. R. P. School Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHASHI RAJ DARA  
Dy. Registrar of Companies  
Andhra Pradesh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sonnet Diagnostiks Private Limited

Hyderabad-500195, the 3rd August 2011

Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sonnet Diagnostiks Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHASHI RAJ DARA  
Dy. Registrar of Companies  
Andhra Pradesh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Praneetha Forex Private Limited

Hyderabad-500195, the 3rd August 2011

Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Praneetha Forex Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHASHI RAJ DARA  
Dy. Registrar of Companies  
Andhra Pradesh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Quest Minerals Private Limited

Hyderabad-500195, the 3rd August 2011

Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of

M/s. Quest Minerals Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHASHI RAJ DARA  
Dy. Registrar of Companies  
Andhra Pradesh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Vijayabheri Food Products Private Limited

Hyderabad-500195, the 3rd August 2011

Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Vijayabheri Food Products Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHASHI RAJ DARA  
Dy. Registrar of Companies  
Andhra Pradesh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Supreme Health Care and Services Private Limited

Hyderabad-500195, the 3rd August 2011

Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Supreme Health Care and Services Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHASHI RAJ DARA  
Dy. Registrar of Companies  
Andhra Pradesh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. P. V. Power Spinners Private Limited

Hyderabad-500195, the 3rd August 2011

Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. P. V. Power Spinners Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHASHI RAJ DARA  
Dy. Registrar of Companies  
Andhra Pradesh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Deccan Live Stock and Agro Plantations Limited

Hyderabad-500195, the 3rd August 2011

Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Deccan Live Stock and Agro Plantations Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHASHI RAJ DARA  
Dy. Registrar of Companies  
Andhra Pradesh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Musika Solutions Private Limited

Hyderabad-500195, the 3rd August 2011

Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Musika Solutions Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHASHI RAJ DARA  
Dy. Registrar of Companies  
Andhra Pradesh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Secunderabad Investments Private Limited

Hyderabad-500195, the 3rd August 2011

Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Secunderabad Investments Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHASHI RAJ DARA  
Dy. Registrar of Companies  
Andhra Pradesh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Eniac Softwares Private Limited

Hyderabad-500195, the 3rd August 2011

Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Eniac Softwares Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHASHI RAJ DARA  
Dy. Registrar of Companies  
Andhra Pradesh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. E-Den Software Solutions Private Limited

Hyderabad-500195, the 3rd August 2011

ANotice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. E-Den Software Solutions Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHASHI RAJ DARA  
Dy. Registrar of Companies  
Andhra Pradesh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
the following Companies

Hyderabad, the 18th July 2012

No. RoC/section 560(5)FTE-SCHEME/VSJ/Co. No. 53/  
2012—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the

following Companies have this day been struck off from the register and the said companies are dissolved :—

Sl. No.	Company No.	Name of the Company
1	2	3
1.	056200	M/s. Shree Shubham Shelters Private Limited
2.	045500	M/s. Agami Systems Private Limited.
3.	055635	M/s. Sunridge Software Solutions Private Limited
4.	016052	M/s. Dwelwel Engineers Private Limited
5.	055860	M/s. DSC Cement Limited
6.	060161	M/s. VTL Premier Pyrotechnics Limited
7.	052340	M/s. Sans Marketing Private Limited
8.	019789	M/s. Balaji Viraj Can and Components Private Limited
9.	060106	M/s. Navodaya Infratech India Private Limited
10.	031551	M/s. A.V.R. Holdings Private Limited
11.	058168	M/s. Prakruti Software Services Private Limited
12.	055464	M/s. Vyath Netronics Private Limited
13.	058600	M/s. Clean Energy Investments India Private Limited
14.	054214	M/s. Abhijyoti Estate & Infra Private Limited
15.	059908	M/s. Mayfair Hanson Homes Private Limited
16.	066073	M/s. Marsan Hospitals Limited
17.	025455	M/s. Grand Ville Chit Fund Private Limited
18.	048993	M/s. Manik Softsolutions Private Limited
19.	044719	M/s. Ned Pharma Private Limited
20.	061764	M/s. Arka Motion Pictures and Studios Private Limited
21.	060097	M/s. Megavalue Insurance Services Private Limited
22.	053681	M/s. Abhiram Constructions Private Limited
23.	053697	M/s. Chada Software Solutions Private Limited
24.	062368	M/s. Varsha Cement and Power Industries Private Limited
25.	057424	M/s. Peritus Logistic Solutions and Services Private Limited

1	2	3
26.	058878	M/s. UIBI Innovations Private Limited
27.	061048	M/s. K.U. Educations Private Limited
28.	066174	M/s. European Formula Building Adhesives Private Limited
29.	054234	M/s. Atlas Software Solutions Private Limited
30.	050811	M/s. Ysasvi Technologies Private Limited
31.	055512	M/s. Varma Impex Private Limited
32.	018322	M/s. Ranit Agro Private Limited
33.	047994	M/s. Cadena Software Private Limited
34.	050263	M/s. Optech Visual Equipments Private Limited
35.	068216	M/s. GNK Power Private Limited
36.	067533	M/s. Helios Power Projects Private Limited
37.	042510	M/s. Indicus Pharma Private Limited
38.	035929	M/s. Sri Vinayaka Distillery and Marketing Private Limited
39.	064478	M/s. Jord Minerals Private Limited
40.	056773	M/s. Dream Scapes Infratech Private Limited
41.	065878	M/s. Lastaki Investment Advisory Services Private Limited
42.	060341	M/s. VSS Shree Energy Projects Private Limited
43.	066409	M/s. YKM Srinivasa Health Care Private Limited
44.	059732	M/s. Emarket Innovations Soft Private Limited
45.	043225	M/s. Ixai (India) Private Limited
46.	059519	M/s. Rubicon Techsol Private Limited
47.	062187	M/s. Reckon Software Solutions Private Limited
48.	059648	M/s. Astra Techserve Private Limited
49.	061170	M/s. Rahul Petrochemical Products Private Limited
50.	020967	M/s. Parameshwari Cold Storage Private Limited
51.	068691	M/s. HKR Tollways Limited
52.	042331	M/s. Ralph Harris Medicare Private Limited
53.	043369	M/s. Virtual Function Halls Private Limited

V. SANTOSHI JAGIRDAR  
Asstt. Registrar of Companies  
Andhra Pradesh

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित  
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2012

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND

PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2012